



उपराष्ट्रपति ने ग्वालियर में किया देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन

राज्यपाल श्री पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. यादव, केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया, श्री दुबे एवं विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में हुए शामिल

- पृथ्वी एवं मानव जाति की उत्पत्ति और विकास की अनूठी जानकारीयां उपलब्ध हैं म्यूजियम में
- डायनासोर का अण्डा भी देखा जा सकता है म्यूजियम में

समय जगत, भोपाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर में देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम (भू-विज्ञान संग्रहालय) का रविवार को उद्घाटन किया। ग्वालियर के ऐतिहासिक महाराज बाड़ा पर हैरीटेज बिल्डिंग विक्टोरिया मार्केट में स्थापित अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय संचार व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर, ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिन्हा एवं सांसद भारत सिंह कुशवाह भी मौजूद थे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ विशेष रूप से उपस्थित रही। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने पट्टिका का अनावरण कर एवं म्यूजियम



के प्रवेश द्वार पर फीता काटकर देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया। साथ ही ग्वालियरवासियों को इस अनूठी सौगात की बधाई एवं शुभकामनायें दीं। उन्होंने सभी अतिथियों के साथ म्यूजियम की विभिन्न गैलरियों में दर्शाए गए भू-विज्ञान से संबंधित चित्रों, कलाकृतियों एवं जानकारियों को देखा एवं म्यूजियम की सराहना की। म्यूजियम के उद्घाटन के बाद उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने महाराज बाड़ा पर स्थित वास्तु शिल्प के उत्कृष्ट नमूनों के रूप में खड़ी ऐतिहासिक इमारतों को भी देखा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया एवं विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने उपराष्ट्रपति को महाराज बाड़े की इमारतों के शिल्प एवं शैलियों से अवगत कराया। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा ग्वालियर नगर निगम के सहयोग से तैयार किए गए देश के इस पहले

अत्याधुनिक एवं अद्भुत जियो साइंस म्यूजियम में पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव जाति एवं मानव सभ्यता का विकास और ब्रम्हाण्ड से जुड़े अनूठे जानकारियां समाहित हैं। म्यूजियम में डायनासोर का अण्डा सहित कीमती वस्तुएं पर्यटकों को देखने के लिये उपलब्ध हैं। यह म्यूजियम भू-विज्ञान से संबंधित बच्चों से लेकर बड़ों तक की जिज्ञासाओं का समाधान उपलब्ध है। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह संग्रहालय ज्ञानवर्धक है। पृथ्वी विज्ञान से संबंधित दुर्लभ भू-वैज्ञानिक नमूनों को मल्टीमीडिया डिस्प्ले के जरिए म्यूजियम में दिखाया गया है।

कार्यक्रम में इनकी भी रही मौजूदगी

जियो साइंस म्यूजियम के उद्घाटन कार्यक्रम में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक असित साहा, संभोग आयुक्त मनोज खत्री, पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव एवं जियो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारीगण भी मौजूद थे।

मानव सभ्यता के विकास की गाथा

बयां कर रही है दूसरी गैलरी

जियो साइंस म्यूजियम की दूसरी गैलरी में मानव जाति और मानव सभ्यता के विकास को बड़े बखूबी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि धरती पर डायनासोर की उत्पत्ति और विलुप्ति हुई। साथ ही मानव की उत्पत्ति के से हुई और कैसे उसका जीवनक्रम आगे बढ़ा। मानव सभ्यता की जीवन शैली में आए बदलाव का यह वर्णन भी दर्शाया है।

संग्रहालय की एक गैलरी में पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की है जानकारी

जियो साइंस म्यूजियम में दो गैलरियों के माध्यम से भू-विज्ञान के बारे में लाइट इफेक्ट के साथ आकर्षक ढंग से जानकारी संजोई गई है। एक गैलरी में पृथ्वी के विकास को दर्शाया गया है, जिसमें उल्लेख है कि पृथ्वी अपने मूल स्वरूप में किस प्रकार आई और कौन-कौन सी चीजों से मिलकर पृथ्वी बनी है। वर्तमान में जो पृथ्वी है, असल में वह कैसी दिखती है। पृथ्वी के भीतर लावा किस तरह से तैयार होता है और ज्वालामुखी फूटने से किस तरह पर्वतों का निर्माण होता है। यह सब जानकारियां बखूबी ढंग से संग्रहालय में दर्शायी गई है। यहाँ आने वाले पर्यटन भूकम्प का अनुभव भी कर सकते हैं। इसके अलावा वायु मण्डल और महासागर के बारे में भी वर्णन है। लाइट इफेक्ट और अत्याधुनिक मशीनी तकनीक से बड़े बखूबी ढंग से यह सब प्रदर्शित किया गया है।

न्यूज ब्रीफ

गृहमंत्री शाह ने पुलिस प्लाटून की ली सलामी

जगदलपुर। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राष्ट्रपति पुलिस क्लर अर्बि-2024 कार्यक्रम में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस प्लाटून की सलामी ली। इस दौरान शाह ने राष्ट्रपति पुलिस क्लर प्लेग भी पुलिस को सौंपा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। राष्ट्रपति पुलिस क्लर प्लेग में बस्तर की संस्कृति को भी दिखाया गया, जिसमें गौर, माड़िया, सिंग और धान की बालिया शामिल हैं। झंडे के ऊपर और नीचे 36 किलों को दिखाया गया है। गृहमंत्री शाह के राष्ट्रपति पुलिस क्लर अर्बि परेड में शामिल होने के बाद जगदलपुर रवाना हो गये। रविवार दोपहर 3 बजे अमित शाह जगदलपुर पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले इंदिरा प्रियदर्शनीय स्टेडियम में बस्तर ओलिंपिक कार्यक्रम में शामिल हुए। सरेंडर किए गए नक्सली, नक्सल हिंसा पीड़ित और शहीद परिवारों से मुलाकात किये।

भोपाल में प्रयागराज महाकुंभ का लोगो हुआ लॉन्च



समय जगत, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रयागराज महाकुंभ मेले के लोगो का यूपी के जल शक्ति मंत्री रवतंत्र देव सिंह और कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लॉन्च किया। यूपी सरकार के मंत्रियों ने मध्यप्रदेश की जनता को कुंभ में आने का न्यौता दिया। इस अवसर पर मंत्री सिंह ने कहा कि महाकुंभ एकता का वैश्विक प्रतीक बनेगा। पिछले कुंभ से दिव्य और अद्भुत होगा। दावा किया कि इस बार कुंभ में 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेला लगेगा। यह कुंभ प्लास्टिकमुक्त रहेगा। श्रद्धालु डिजिटल कुंभ का अनुभव भी करेंगे। कुंभ स्थल स्वच्छ, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शुद्ध पेयजल, स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को पहचान के लिए रिस्ट बैंड भी दिए जाएंगे।

सूखी खुबानी में होते हैं ढेर सारे पोषक तत्व

नई दिल्ली। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो काजू, बादाम, किशमिश और अखरोट के अलावा एक और ड्राईफ्रूट है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, वह है सूखी खुबानी। सूखी खुबानी में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। सूखी खुबानी में आयरन की उच्च मात्रा पाई जाती है, जो खून की कमी (एनीमिया) से जूझ रहे लोगों के लिए एक वरदान है। आयरन की कमी से होने वाली थकान और कमजोरी से राहत पाने के लिए सूखी खुबानी का सेवन किया जा सकता है। यह ड्राई फ्रूट उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो सामान्य रूप से खून की कमी महसूस करते हैं।

ग्रामीणों को उनके नजदीकी स्थान पर ही मिलेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं: उदय प्रताप



समय जगत, भोपाल। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उनके ग्राम में ही मिले, इसके लिये राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का ग्रामीण स्तर पर तेजी से विस्तार कर रही है। मंत्री श्री सिंह शनिवार को नरसिंहपुर के गाड़वाड़ा के ग्राम पंचायत में 49 लाख रुपये की लागत से निर्मित उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर प्रदेश में जन-कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान नागरिकों की समस्याओं का निराकरण उनके ही गाँव में किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उप स्वास्थ्य केन्द्र बन जाने से ग्रामीणों को ब्लड-प्रेशर, शुगर, खून की जाँच, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण जैसे कामों के लिये दूर नहीं जाना पड़ेगा। उप स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध रहेंगी। इस मौके पर पंचायत पदाधिकारी मौजूद थे।

डॉक्टरों की देखरेख में जारी है आडवाणी का इलाज



नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। वे फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनका स्वास्थ्य स्थिर बताया जा रहा है। पिछले दो सप्ताह से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसके बाद उन्हें इंद्रप्रस्थ अपोलो में भर्ती कराया गया था। इंद्रप्रस्थ अपोलो के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, लालकृष्ण आडवाणी को मेडिकल मैनेजमेंट और जांच के लिए इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वे सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनीत सूरी की देखरेख में हैं और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है।

आयोजन

अतिथियों के सारगर्भित उद्बोधन को सभी ने सराहा

निखिलेश माहेश्वरी की पुस्तक का हुआ विमोचन



समय जगत, भोपाल। विद्याभारती के मुख्य अतिथि श्रीराम आरावकर अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री विद्याभारती की पुस्तक 'राष्ट्रसेविका मां अहिल्याबाई होल्कर' का विमोचन राजधानी में रविवार को संपन्न हुआ। गौरीनाथ सभागार रवीन्द्र भवन भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि के रूप में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह व राज्य सूचना आयुक्त म.प्र. डॉ. वंदना गांधी उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में अतिथियों के सारगर्भित उद्बोधन को सभी के द्वारा सराहा गया। कार्यक्रम में विद्याभारती के शिरोमणि दुबे के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति के साथ सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा एवं भोपाल दक्षिण परिचय के विधायक भगवान दास सबनानी की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही।

आप ने जारी की 38 नामों की चौथी कैडिडेट लिस्ट



नई दिल्ली। दिल्ली की सतारूद आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी और फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पारंपरिक नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे तो सीएम आतिशी कालकाजी से मैदान में होंगी। मंत्री सीरथ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश और गोपाल राय बाबरपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। आप ने इस लिस्ट में 38 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप की आखिरी सूची में ज्यादातर नाम वे हैं जिन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था यानी इसने निवर्तमान विधायकों को दोबारा टिकट दिया है, जबकि सीएम आतिशी के विनोद के मंत्रियों सीरथ भारद्वाज, इमरान हुसैन, गोपाल राय और मुकेश कुमार अहलावाल का टिकट दोहराया गया है। इसके अलावा आप ने पार्टी के बड़े चेहरों में से सोमनाथ भारती, दुर्गा पाठक और अमानतुल्ला खान पर भी भरोसा जताया गया है। 38 प्रत्याशियों की लिस्ट में हेरान करने वाला नाम रमेश पहलवान का है जिन्होंने आज ही अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप ज्वानन की है, रमेश पहलवान को कस्तूरबा नगर से टिकट दिया गया है, रमेश की पत्नी कुसुमलता पार्षद हैं, कुसुमलता ने भी आप ज्वानन की है, दोनों पति-पत्नी ने 2017 में आप का साथ छोड़ दिया था और सात साल के अंतराल के बाद आप ज्वानन की है।

परि: श्री. श्रीमन्/श्रीमती

वर्षिक समाज सेवा

श्री. श्री. मेयालाल शुक्ल जी की स्मृति में राष्ट्रीय एकता मंच द्वारा

हैमिस बाल क्रिकेट टूर्नामेंट के नौवां संस्करण का

मव्य शुभारंभ

दिनांक: 15 दिसंबर 2024, रविवार, सुनय-12 बजे दिन से

स्थान: अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्टेडियम, रीवा

मुख्य अतिथि: मान. श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री म.प्र. लालन

अध्यक्षता: श्री व्यंकटेश पाण्डेय जी अध्यक्ष नगर पालिक निगम, रीवा

अतिथि: अजित कुमार शुक्ल

निवेदक - राष्ट्रीय एकता मंच एवं समस्त कमेटी सदस्य, रीवा

संयक्त: 8959593060, 9669736953, 9425937399

नगर में सड़क पर वाहनों की पार्किंग से यातायात बाधित, संबंधित विभाग को ध्यान देने की है आवश्यकता

मण्डला। नगर की यातायात व्यवस्था इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रही है। शहर के प्रमुख मार्गों जैसे चिलमन चौक से बिड़िया, नेहरू स्मारक, बुधवारी और कृषि उपज मंडी तक यातायात दबाव की स्थिति दिनभर बनी रहती है। इसके कारण, सड़क पर अक्सर जाम लगने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। खासकर, दोपहिया वाहन चालकों को निकलने में कठिनाई होती है और इस बीच यदि किसी आपातकालीन सेवा जैसे एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड को गुजरना हो, तो उन्हें काफी मशकत करनी पड़ती है। इस स्थिति का मुख्य कारण नगर के बीचों-बीच स्थित बस स्टैंड है। यहां बसों की धीमी गति से आवाजाही होती है और वे अपनी सवारियों



को उतारने के लिए बीच सड़क पर खड़ी हो जाती हैं। इससे न केवल बसों के पीछे चल रहे अन्य वाहनों को परेशानी होती है, बल्कि यातायात व्यवस्था में भी अ व्यवस्था उत्पन्न होती है। दूसरी ओर, दुकानदारों

द्वारा सड़क के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे सड़कें और संकीरी हो गई हैं और जाम की स्थिति और बिगड़ जाती है। इसके अलावा, दुकानदारों द्वारा माल की लोडिंग और अनलोडिंग से भी सड़क की स्थिति प्रभावित होती है, जिससे पूरे क्षेत्र में यातायात अवरुद्ध हो जाता है। ऑटो रिक्शा की बढ़ती संख्या भी यातायात व्यवस्था को और विकृत कर रही है। इनमें से अधिकांश ऑटो बिना किसी निर्धारित स्टैंड के सड़क पर खड़े रहते हैं, जिससे यातायात में रुकावट आती है। इसके साथ ही, यदि कोई यात्री या वाहन चालक इस स्थिति पर आयातित जाता है, तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि यातायात व्यवस्था

की सुध लेने की आवश्यकता है, ताकि शहर की सड़कों पर लगने वाले जाम की समस्या का समाधान किया जा सके। जिला प्रशासन को चाहिए कि वह इस समस्या का ठोस हल निकाले, ताकि लोगों को इस स्थिति से राहत मिल सके और यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके। नगर में व्याप्त इस समस्या के समाधान के लिए ट्रैफिक नियमों की सख्ती से पालन कराना, बसों के लिए निर्धारित स्टैंड बनाना, दुकानदारों से सड़क पर कब्जा हटवाना और ऑटो रिक्शा के लिए उयुक्त स्टैंड बनाने जैसी पहलें जरूरी हैं। केवल इस तरह से ही शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है और नागरिकों को जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सकती है।

भाजपा सरकार के एक वर्ष पूर्ण, मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर आयोजित हुए सेवाभावी कार्यक्रम

समय जगत, धौलपुर। भाजपा सरकार के सफलता एक वर्ष पूर्ण होने और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बाड़ी मंडल के कार्यक्रमों ने सेवा और समर्पण के अनूठे कार्यक्रम आयोजित किए। इस अवसर पर गरीबों में फल और बिस्कुट वितरण, वृक्षारोपण, और रक्तदान शिविर जैसे कार्यों से समाज सेवा का एक प्रेरणादायक संदेश दिया गया। मेला ग्राउंड के पास आयोजित कार्यक्रम में गरीब परिवारों और उनके बच्चों को फल और बिस्कुट के पैकेट वितरित किए गए। इसके साथ ही वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने इस मुहिम में भाग लिया। सेवा कार्यों की इस श्रृंखला में रक्तदान शिविर का आयोजन विशेष आकर्षण रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं ने रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद के लिए



प्रतिबद्धता दिखाई। शिविर में सैकड़ों यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जिससे कई जरूरतमंद मरीजों को सहायता मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना की। उनका नेतृत्व राज्य को नए आयामों तक ले जा रहा है। इस सेवा कार्य में भाजपा के वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ताओं ने मिलकर योगदान दिया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख चेहरों में मंडल अथर्व दिनेश मामा गां, जिला महामंत्री अनिल गोयल, संगठन पद सहसंयोजक वंदना शिवहरे, मंत्री दीनदयाल कोली और नरेश यादव, पार्षद सुदामा कंसल, तथा प्रदीप भारद्वाज शामिल रहे।

भक्तों की 15 दिवसीय नर्मदा परिक्रमा हुई पूरी



समय जगत, भोपाल। मां नर्मदा जी के परम आशीर्वाद और सभी देवी देवताओं, बुजुर्गों की कृपा दृष्टि से रायसेन जिले के निवासी भक्तों की पंद्रह दिवसीय नर्मदा परिक्रमा पूर्ण हो गई है, इससे सभी भक्त परिक्रमाधियों को अद्भुत अनुभव और आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई है। भोपाल में जगह-जगह उनका स्वागत किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने पूज्यों को चर्चा की और मिठाइयाँ वितरित कीं। इससे पहले भी पिपरिया, उदयपुर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, होशंगाबाद, जबलपुर, अमरकंटक, और कई अन्य स्थानों पर इनका स्वागत किया गया था। परिक्रमा वासियों ने अपने अनुभवों को साझा किया और नर्मदा परिक्रमा के दौरान मिले आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने बताया की यह नर्मदा परिक्रमा एक अद्वितीय अनुभव था, जिसने सभी यात्रियों को प्रकृति की सुंदरता, संस्कृति की समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान को गहराई का अनुभव कराया।

नेशनल लोक अदालत सफल रूप से हुई संपन्न

समय जगत, मण्डला। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 दिसम्बर 2024 को सम्पूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई, इसी तारतम्य में जिला मण्डला में प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एस0के0 जोशी के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण) पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के



साथ-साथ, बैंक, नगरपालिका, विद्युत एवं बी0एस0एन0एल0 के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिला न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय नैपपुर/निवास/बिड़िया में भी उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है जिसमें सभी

1191158 रुपये की वसूली राशि प्राप्त हुई, नगरपालिका के 109 प्रकरणों में से 102 प्रकरण निराकृत हुये, जिसमें 260228 रुपये की वसूली राशि प्राप्त हुई। न्यायालय के लंबित केसों में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण 107 प्रकरणों में से 93 निराकृत। धारा 138 एन0आइ0एक्ट के 50. प्रकरणों में से 44 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें राशि 6102972 का अर्वाइ पारित किया गया, एम0ए0सी0टी0 के 66 प्रकरणों में से 59 प्रकरण निराकृत हुये 21377633 का अर्वाइ पारित किया गया, एवं पारिवारिक विवाद के 4 प्रकरणों में से 4. प्रकरणों को निराकृत किया गया। अन्य सिविल प्रकृति के 14 प्रकरणों में से 14 प्रकरण निराकृत हुये। लंबित विद्युत अधिनियम के 3 प्रकरण रखे गये थे, जिसमें से 3 प्रकरण निराकृत हुये, जिसकी समझौता राशि 26324 रुपये का आदेश पारित किया गया।

गीता जयंती सप्ताह अभियान का हुआ समापन



समय जगत, खिरकिया। गीता जयंती उत्सव सप्ताह जन अभियान परिषद द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर 2024 से 15 दिसम्बर 2024 तक मनाया जा रहा था। जिसका मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम की कक्षा में कार्यक्रम के साथ समापन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भरतदास वैष्णव ने श्रीमद् भगवद्गीता का जीवन में महत्व बताया। साथ ही श्रीमद् भगवद्गीता के बारे में सारांशित जानकारी उपस्थित जनों को दी। जन अभियान परिषद की ब्लॉक समन्वयक विनीता शाह द्वारा सभी से नियमित गीता पाठ का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन परामर्शदाता ऋषि विश्वेन्द्र द्वारा किया गया नियमित गीता पाठ करने वाले को ऋषि विश्वेन्द्र द्वारा निशुल्क श्रीमद् भगवद्गीता भेंट की जाएगी। कार्यक्रम में परामर्शदाता मुकेश कुम्हार अपेक्ष शशोरे मनोज राव अंजना श्रीवास्तव नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

नेशनल लोक अदालत में जिले में 41 खंडपीठ का गठन कर करोड़ों के अर्वाइ हुए पारित

आपसी समझौते के आधार पर किया गया 1119 लंबित मामलों का निराकरण, 2745 व्यक्ति हुए लाभान्वित



समय जगत, धारा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 14.12.2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर सुरेश कुमार कैत के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल जिला मुख्यालय पर पदस्थ समस्त

न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, बैंकिंग कंपनी मैनेजर, विद्युत वितरण कंपनी के पदाधिकारी, एवं दूरसंचार विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के सचिव उमेश कुमार सोनी द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत हेतु संपूर्ण जिले के लिए कुल 41 खंडपीठ का गठन किया गया था। नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के दाण्डक एवं सिविल राजीनामा योग्य कुल 1119 लंबित मामलों का निराकरण आपसी

समझौते के आधार पर किया गया, जिसमें 2745 व्यक्ति लाभान्वित हुए व 11,83,67,728/-रुपये (ग्यारह करोड़ त्रिसासी लाख सड़सठ हजार सात सौ अठसई रुपये मात्र) के अर्वाइ पारित किये गये, साथ ही 3168 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें कुल 5,97,76,819/- (पांच करोड़ सन्तानवे लाख छियात्तर हजार आठ सौ अठसई रुपये मात्र) की वसूली हुई तथा 3168 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इस प्रकार आज की नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सकल कुल 4287 प्रकरण निराकृत कर कुल 17,81,44,547/- (सत्रह करोड़ इक्यासी लाख चौवालीस हजार पांच सौ सैतालीस रुपये मात्र) राशि अर्वाइ पारित किये गये, जिसमें 5913 लोग लाभान्वित किये गये। लोक अदालत से निराकृत प्रकरण के पक्षकारों को न्याय वृक्ष के रूप में अनार, आम, कटहल, जामुन, खिरसी आदि वितरित किये गये।

जीनियस का शैक्षणिक भ्रमण संपन्न

समय जगत, इटारसी। जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा नवमी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों ने दिल्ली, अमृतसर और बाघा-अटारी बॉर्डर का शैक्षणिक भ्रमण किया। दिल्ली में इंडिया गेट, कुतुबमीनार, राज घाट, लाल किला और विजय पथ का भ्रमण विद्यार्थियों ने किया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के दर्शन लाभ लेकर विद्यार्थियों ने जलियांवाला बाग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाना, पंजाब स्टेट वार हिरोस मेमोरियल एवं म्यूजियम देखा जिसमें तरह तरह के युद्ध में उपयोग होने वाले हथियार देखे साथ ही सेना द्वारा उपयोग होने वाले टैंक एवं मशीन को देखा साथ ही उनकी जानकारी हासिल की यह इसके बाद स्टूडेंट्स ने 7 डी शो के माध्यम से भारतीय सैनिकों की वीरता और उनके पराक्रम को देखा। जिसके बाद विद्यार्थियों ने बाघा-अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों की शानदार और आलौकिक परेड एवं राष्ट्रीय ध्वज को अवरोहण की प्रक्रिया को समझा। स्टूडेंट्स ने भारत के अंतिम रेलवे स्टेशन अटारी को भी जाकर देखा। विद्यालय के निर्देशकद्वय जाफर सिद्दीकी एवं मनीता सिद्दीकी ने कहा कि इस प्रकार का शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों को भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक प्रचुरता को समझने में सहायक होता है। स्कूल प्राचार्य विशाल शुक्ला ने बताया कि जल्दी ही कक्षा पांचवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों को भी शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाएगा।


वर्धमान पब्लिक स्कूल के छात्रों ने शौर्य साहस, वीरता को नजदीक से सराहा



समय जगत, इटारसी। वर्धमान पब्लिक स्कूल, इटारसी ने एक और उपलब्धि जोड़ते हुए अपने छात्रों को ताकू आर्मी फायरिंग रेंज का दौरा कराया। इस अनूठे अवसर में छात्रों ने भारतीय सेना के शौर्य और ताकत को करीब से देखा। फायरिंग रेंज में उन्होंने आधुनिक हथियारों और गोला-बारूद को समझा, सेना के जवानों द्वारा फायरिंग का प्रदर्शन देखा, और सेना के अदम्य साहस को महसूस किया। यह अनुभव छात्रों के लिए बेहद रोमांचक और ज्ञानवर्धक साबित हुआ, जिससे उनमें देशभक्ति और साहस की भावना और मजबूत हुई। वर्धमान पब्लिक स्कूल ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन

के वास्तविक अनुभवों से भी प्राप्त होती है। प्रेरणादायक यह दौरा जीनियर विंग डायरेक्टर प्रसन्न जैन, संस्था मैनेजर जयप्रकाश सोनी एवं क्रीड़ा अधिकारी अमित द्विवेदी के सान्निध्य में शिक्षिका श्रीमती वंदना गौतम के विशेष सहयोग से किया गया हम इस अद्भुत अवसर के लिए भारतीय सेना और सभी अधिकारियों का आभार प्रकट करते हैं, साथ ही विशेष रूप से कर्नल जे.कृष्णैया, कर्नल धीरज खन्ना, व कर्नल विनय गौतम का भी विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे छात्रों को इस अविस्मरणीय अनुभव का हिस्सा बनाया। वर्धमान पब्लिक स्कूल, जहाँ विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करता है वहीं सुनहरे भविष्य की तैयारी भी करवाता है।

मण्डला जिले की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक अनियमितताएं: मासूम बच्चों का भविष्य दांव पर



मण्डला। जिले के शासकीय स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की हालत चिंताजनक बनी हुई है। जहाँ एक ओर सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने और हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जिले में कुछ स्कूलों में शिक्षकों की अनुपलब्धता और अतिशेष शिक्षकों की तैनाती से सरकारी धन की बर्बादी हो रही है। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक असमर्थता को उजागर करती है, बल्कि राजनीतिक दबावों के चलते शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर भी सवाल उठती है। जिले के प्राथमिक स्कूलों में कुछ स्कूलों में तो शिक्षा कार्य केवल नाम के लिए चल रहा है। उदाहरण के तौर पर, संजयनगर बिड़िया प्राथमिक स्कूल में 03 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ 03 शिक्षकों की तैनाती की गई है। इसी तरह, बर्रा टोला देवरा प्राथमिक स्कूल में 10 बच्चे हैं और यहाँ 02 शिक्षक पदस्थ हैं। यह स्थिति उन स्कूलों की है, जिनमें बच्चे की संख्या बहुत कम है, फिर भी विभाग ने अतिरिक्त शिक्षकों की

तैनाती कर रखी है। सवाल उठता है कि जब बच्चे ही कम हैं तो इन शिक्षकों की आवश्यकता क्यों है? क्या यह सरकारी धन की बर्बादी नहीं है? और यदि यह स्थिति कई सालों से चल रही है, तो प्रशासन क्यों इस मामले में ठोस कदम नहीं उठा रहा ऐसे स्कूलों के बारे में मॉडिया में कई बार खबरें प्रकाशित की गईं, ताकि प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए। लेकिन हर बार अधिकारियों द्वारा केवल खानापूरी की कार्रवाई की जाती है, और फिर वही स्थिति बनी रहती है। यह स्थिति इसलिए भी चिंता का विषय बन गई है क्योंकि हर महीने शासन को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। विभागीय अधिकारी इस पर एकाग्र लक्ष्य में ठोस कदम हैं और उनकी यह हलुनमुल रवैया शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है।

डॉ. मोहन यादव सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने गिनाई उपलब्धियां

समय जगत, नरसिंहपुर। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय नरसिंहपुर में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केबिनेट मंत्री राव उदयप्रताप सिंह ने जिला महामंत्री डॉ.हरगोविंद सिंह पटेल, लक्ष्मी राजीव सिंह, नंदकिशोर ठाकुर, न.पा. अध्यक्ष नीरज महाराज जिला मीडिया प्रभारी अभिनव शर्मा, पूर्व मण्डल रमाकान्त चौबे की उपस्थिति में आयोजित पत्रकारवाता को संबोधित किया मंत्री सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि 13 दिसम्बर 2023 को डॉ.मोहन यादव के नेतृत्व में गठित सरकार द्वारा प्रथम वर्ष में मध्य प्रदेश में सुशासन विकास और विरासत के संवर्धन के लिए समर्पित रहा है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ गौरवशाली सम्पन्न एवं विकसित मध्यप्रदेश की संकल्पना को साकार करने का ईमानदार प्रयास किया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की उन्नति के लिये किसान गरीब महिला और युवाओं के लिये सफलता के द्वार खोल दिये हैं एवं राज्य सरकार जनकल्याण पर्व शुरु किया गया है जिसमें जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित नागरिकों की शिविर लगाकर लाभान्वित किया जायेगा साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किये जायेंगे। डॉ. मोहन

यादव की सरकार ने संबल 2,0 के अंतर्गत 1 करोड़ 73 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन 40 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को 895 करोड़ रुपये से अधिक की अनुग्रह राशि का अंतरण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में प्रतिमाह 55 लाख हितग्राहियों को 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का अंतरण पीएम स्वनिधि योजना में 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10 से 50 हजार रुपये तक के ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में 36 लाख से अधिक परिवारों और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 8 लाख से अधिक परिवारों के घर का सपना साकार हुआ। वहीं किसानों के कल्याण हेतु रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ पर प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस का भुगतान। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि में 6 हजार रुपये प्रति वर्ष का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा रहा है। राजस्व महाअभियान के दो चरणों में 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया। राजस्व महाअभियान 3.0 शुरु

हुआ। इसी प्रकार युवाओं के लिये राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5 हजार करोड़ रुपये का स्व रोजगार ऋण वितरित हुआ। आगामी समय में सभी शासकीय विभागों में लगभग 1 लाख पदों पर भर्तियों की जाएगी साथ ही 5 वर्ष में 2 लाख 50 हजार सरकारी नौकरियाँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा के उद्देश्य से 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस प्रारंभ किया गया है। महिला सशक्तिकरण हेतु म.प्र. में शासकीय सेवाओं में महिलाओं को अब 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। लालुलू बहना योजना में 1,29 करोड़ बच्चों को जनवरी 2024 से अब तक 19 हजार 212 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण किया गया। रक्षाबंधन पर बहनों को 250 रुपये अतिरिक्त राशि नेग के रूप में दी गई। साथ ही 26 लाख लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर हेतु 715 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई प्रदेश में एक लाख से अधिक दीदीयां लखपति बनीं हैं। वर्ष 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है प्रदेश में उज्जैन जबलपुर ग्वालियर सागर रीवा और नर्मदापुरम में सम्पन्न हुई रोजन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कुल 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिससे 3 लाख से अधिक रोजगार सृजन होगा।

अन्नकूट महोत्सव: श्री खाटू श्याम संकीर्तन का बोड़ा में आज होगा भव्य आयोजन



समय जगत, बोड़ा। नगर बोड़ा के अम्बेडकर चौक, पुराना बस स्टैंड पर 16 दिसंबर 2024, सोमवार को श्री खाटू श्याम संकीर्तन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन श्याम सखा मित्र मंडल के तत्वावधान में आयोजित होगा। कार्यक्रम में श्याम भक्तों के लिए भव्य दरबार, अखंड ज्योति, अलौकिक श्रृंगार, और छपन भोग की विशेष झलक प्रस्तुत की जाएगी। भक्तों को भक्ति रस में सराबोर करने के लिए गायक देवेन्द्र सिंह मेवाड़ा और गायिका पूजा दीदी अपनी मधुर वाणी से संकीर्तन करेंगे। पुष्प और इत्र वर्षा से सजेगा आयोजन स्थल

आयोजन स्थल को पुष्प और इत्र की वर्षा से अलौकिक रूप में सजाया जाएगा, जो भक्तों को दिव्य अनुभूति प्रदान करेगा। **अन्नकूट महोत्सव और लगेगा छपन भोग** आयोजन के दौरान अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाएगा, जिसमें भगवान को छपन भोग का प्रसाद अर्पित किया जाएगा। यह प्रसाद भक्तों के बीच वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम का समय शाम 7 बजे से निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम अम्बेडकर चौक, पुराना बस स्टैंड, बोड़ा में संपन्न होगा। श्याम सखा मित्र मंडल और समस्त नगरवासियों ने इस कार्यक्रम में सभी श्रद्धालुओं को सपरिवार आमंत्रित किया है। यह आयोजन भक्ति और सामूहिक सहयोग का प्रतीक बनेगा। कार्यक्रम के आयोजक श्याम सखा मित्र मंडल एवं समस्त नगरवासी, नगर बोड़ा, जिला राजगढ़ हैं।

विद्युत के दक्षतापूर्वक उपयोग से ही ऊर्जा संरक्षण में मिलेगी मदद

ऊर्जा संरक्षण दिवस पर एम.पी. ट्रांसको के एम.डी. इंजी. सुनील तिवारी, रीवा में मनाया जा रहा है ऊर्जा संरक्षण सप्ताह



रीवा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर रीवा के साथ पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर एमपी ट्रांसको के रीवा स्थित कार्यालय सहित प्रदेश के सभी ट्रांसमिशन लाइन मटेनेंस कार्यालयों में प्रबंध संचालक इंजीनियर सुनील तिवारी के संदेश का वाचन किया गया और सप्ताह भर ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करने गतिविधियां आयोजित की गई है। रीवा में 132 के व्ही सबस्टेशन में कार्यपालन अभियंता अभय सक्सेना, सहायक अभियंता अजय चौरसिया सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रबंध संचालक ने आवाहन किया कि सभी विद्युत का उचित और दक्षतापूर्वक उपयोग करें ताकि ऊर्जा संरक्षण में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी विद्युत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य को प्राथमिकता देने के प्रति

सवेदनशील और गंभीर है। इस कारण हर वर्ष ऊर्जा की खपत को कम करने के उद्देश्य से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए एम.पी. ट्रांसको विभिन्न कार्यशालाओं, वेबिनारों, आकाशवाणी, सोशलमीडिया प्लेटफॉर्म में जन सामान्य के लिए अपील, बैनर, स्टीकर से ऊर्जा बचत के उपायों का प्रचार सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा स्कूलों कॉलेजों और शासकीय-अशासकीय कार्यालयों में भी ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिये अभियान संचालित करती है। प्रबंध संचालक ने कहा कि एम.पी. ट्रांसको ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2023-24 के लिये पारेषण हानि के अधिकतम लक्ष्य 2.76 प्रतिशत के मुकाबले 2.61 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर ऊर्जा संरक्षण के प्रति एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उल्लेखनीय है कि 0.1 प्रतिशत पारेषण हानि कम करने पर लगभग 950 लाख यूनिट ऊर्जा बचत होती है।

सार-समाचार

रोजगार मेले का आज होगा आयोजन

रीवा। स्थानीय शासकीय टीआरएस महाविद्यालय रीवा में 16 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोजगार मेला आयोजित किया गया है। रोजगार मेला मध्यप्रदेश संस्कृत योजना के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में 10 कंपनियों एवं नियोजकों द्वारा युवाओं का चयन किया जाएगा। मेले में शामिल होने के लिए विभिन्न कंपनियों हेतु युवक एवं युवतियों की आयु सीमा 18 से 48 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आयु सीमा विभिन्न कंपनियों में अलग-अलग होगी। वेतन एवं भत्ते 8000 रुपए से 25 हजार रुपए तक निर्धारित किया गया है। युवाओं को अपने साथ मूल अंकसूची तथा निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड या वोटर आईडी, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन एवं नवीनतम दो पासपोर्ट साइज के फोटो लेकर आना अनिवार्य होगा। उप संचालक ने बताया कि रोजगार मेले में फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमि. पुणे, महाराष्ट्र, एन.ए.पी.एस. कंपनी-सीरम हव्वासर पुणे, बोमटन टेक्नोमैक फर्नीचर प्रा. लि. (आईसेक्ट) इंदौर, ग्राफोस्ट एप्रिटेक प्रा. लि. जबलपुर, प्रगतिशील बायोटेक रीवा, प्रगतिशील एगोटैक रीवा, यशस्वी रूपा भोपाल, पिलपकाई जबलपुर, डीएमसी फिनिसिंग स्कूल प्रा. लि. पुणे, तथा एचडीएफसी लाईफ इश्योरन्स कंपनी लिमि. रीवा में रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे।

कलेक्टर प्रतिभा आज लेंगी टीएल बैठक

रीवा। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में टीएल बैठक का आयोजन 16 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से कलेक्टर के मोहन सभागार में किया गया है। बैठक में कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन सहित मुख्यमंत्री जनकल्याण पर्व एवं आयोजन की समीक्षा की जाएगी। बैठक में संबंधित अधिकारियों को उपस्थिति के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र में आयोजित किये जायेंगे शिविर

समय जगत, रीवा। मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान 11 दिसंबर से संचालित है। अभियान 26 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जायेगा। अभियान के दौरान केन्द्र एवं राज्य सरकार की विन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। अभियान में लोगों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। इस संबंध में आयुक्त नगर निगम डॉ. सौरभ सोनवडे ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिविर के लिए तिथियां और स्थल निर्धारित कर दिये गये हैं। सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित स्थलों में शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करें। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को वार्ड क्रमांक 14 एमपीईबी पार्क, 17 दिसंबर को रामतीलाबाब मंदिर परिसर, 18 दिसंबर को महेश मेमोरियल स्कूल डेकहा, 19 दिसंबर को वार्ड क्रमांक 20, 21 के लिए सामुदायिक भवन कटरा तिराहा तथा 20 दिसंबर को रतहरा तालाब के पास शिविर आयोजित किये जायेंगे। इसी प्रकार 23 दिसंबर को जगन्नाथ मंदिर प्रांगण, 24 दिसंबर को घोषर कन्या शाला, 26 दिसंबर को वार्ड क्रमांक 29, 30 तथा 31 के लिए लोक नायक स्कूल के पास, 27 दिसंबर को पी.के. स्कूल परिसर, 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री आवास परिसर कृष्णा नगर तथा 31 दिसंबर को उपरहटी किला गेट के पास शिविर का आयोजन किया जायेगा।

मुनेमवती गर्ग के निधन पर अर्पित की गई श्रद्धांजलि

गुड। गुड नगर परिसर वार्ड 03 निवासी प्रफुल्ल शुक्ला की दादी मुनेमवती गर्ग 61 वर्ष का दुर्घटना में मोटर साइकल से गिर जाने से सर में चोट की वजह से ईलाज के दौरान उनको संजय गांधी अस्पताल में हो गई इनके निधन पर नगर वासियों द्वारा शोक व्यक्त किया जिनमें प्रमुख रूप से कपिल गर्ग, विकास तिवारी, प्रफुल्ल गर्ग, विपुल मिश्रा, जन्मेजय मिश्रा, दिनेश शुक्ला, संजीव शर्मा, नितिन मिश्रा, संजीव शर्मा रहे।

अवैध नशीली दवा बेचने वाली महिला को किया गया गिरफ्तार

रीवा। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनिल सोनकर, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक अरविन्द सिंह राठौर द्वारा अवैध नशीली दवा कफ सीरफ बिक्री करने वाली महिला को गिरफ्तार कर एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया गया। मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कोतवाली पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की दो महिलाये चोपड़ा विछिया तरफ सफेद झोले में नशीली दवा कफ सीरफ घूम फिरकर बिक्री कर रही है मुखबिर सूचना की तस्दीक कर पुलिस टीम द्वारा रैड कार्यवाही कर एक महिला को अभिराज में लिया गया तथा एक महिला भागने में सफल रही पकड़ी गई महिला आरोपी राजकुमारी साकेत पति शंकर साकेत उम्र 50 वर्ष निवासी धोबिया टंकी हरिजन वस्ती के कब्जे से 35 शी शी नशीली दवा कफ सीरफ ओनरेक्स कंपनी की कीमती 5250 रु की जप्त कर धारा 8/21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं 5/13 म.प्र. ड्रग कन्ट्रोल एक्ट की के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपिया को न्यायालय पेश किया गया जहा से केन्द्रीय जेल रीवा में दाखिल किया गया है। तथा फरार महिला आरोपी की पता तलाश हेतु पुलिस टीम लगाई है।

गिरफ्तार आरोपिया- राजकुमारी साकेत पति शंकर साकेत उम्र 50 वर्ष निवासी धोबिया टंकी हरिजन वस्ती थाना कोतवाली जिला रीवा म.प्र.

सराहनीय भूमिका

थाना प्रभारी उप निरी. अरविन्द सिंह राठौर, उप निरी. सुशीला साकेत से.उ.नि महेंद्र निपाटी, प्र.आर. विनोद तिवारी, प्र.आर. राजकुमार तिवारी, आर. अनिल विश्वकर्मा, आर संजीत यादव, आर सुधीर शुक्ला, आर. राजीव तिवारी, महिला आर. सोनाली गुप्ता सैनिक शिवम पाण्डेय, सैनिक रशीद खान, आर. अभिषेक सिंह, आर दयोधन सिंह की रही।

गरिमायय तरीके से मनाया जायेगा शांति एवं सद्भावना महोत्सव

कार्यक्रम संयोजक मुकेश यंगल ने दी विस्तृत जानकारी

समय जगत, रीवा। नगर में एक बार फिर आगामी 1 जनवरी को टाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के ऐतिहासिक प्रांगण में शांति एवं सद्भावना महोत्सव पूरी गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। नव वर्ष के प्रथम दिवस सुवर्णदिवस की स्वर्णिम रश्मियों के साथ मनाया जाने वाला यह विलक्षण आयोजन आगामी 1 जनवरी को अपनी स्थापना के गौरवशाली 39 वर्ष पूर्ण करेगा। सन 1987 से उक्त विलक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने वाला रीवा नगर देश का एकमात्र नगर है। शांति एवं सद्भाव समारोह के संयोजक एवं विध्यक्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी डॉ मुकेश यंगल ने बताया कि शांति व सद्भाव की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा का साक्षी और सर्मापित रीवा नगर, स्थानीय नगरवासियों के आत्मीय सहयोग से, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल रहते हैं, प्रमुखतः विद्यालय एवं महाविद्यालय छात्र-छात्राएं, एनसीसी के डेटेड्स, शिक्षक, प्राध्यापक, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, अधिकांता गण, व्यापारी बंधु, खेल जगत के युवा साथी, महिलाएं, वरिष्ठ जन एवं समाज के सभी संगठन के लोग पूर्ण उत्साह के साथ 1 जनवरी को सुबह पड़ने वाली तेज टंड के बावजूद कोहरे की परवाह किए बगैर ऐतिहासिक टाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में एकत्र होकर देश एवं विश्व को शांति का संदेश देते हैं।

स्वर्गीय मैयालाल शुक्ल की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का राजेन्द्र शुक्ल ने किया शुभारंभ

एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं खेल: उप मुख्यमंत्री

समय जगत, रीवा। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि खेल एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता जी की स्मृति में आयोजित किये जा रहे टूर्नामेंट के आयोजक साधुवाद के पात्र हैं जो पिता जी के प्रति श्रद्धा के भाव रखकर गत नौ वर्षों से अनवरत प्रति वर्ष इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। श्री शुक्ल ने राष्ट्रीय एकता मंच द्वारा आयोजित टेनिस बाल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के स्टेडियम में 22 दिसंबर तक आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टूर्नामेंट के आयोजन में मेरा कोई योगदान नहीं है। आयोजक पिता जी के प्रति श्रद्धाभाव रखकर इसे आयोजित कर रहे हैं और इसकी ख्याति दूर-दूर तक हो रही है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को खेल



भावना से खेलते हुए हार जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि खेल ही वह विधा है जिसमें जीतने व हारने वाले एक दूसरे को बधाई देते हैं और जो हारते हैं वह अगली बार पूरे दमखम के साथ खेल में भाग लेते

उप मुख्यमंत्री ने हिनौती गौधाम में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की

रीवा। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा निवास स्थित कार्यालय में हिनौती गौधाम में कराए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों से अब तक हुए कार्य की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने शोड निर्माण, फेंसिंग कार्य, प्रशासनिक भवन निर्माण तथा हाई मास्क लाइट लगाए जाने की समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि हिनौती गौधाम में स्वीकृत सभी कार्यों को शीघ्र पूरा कराएं। इस दौरान अध्यक्ष जनपद पंचायत गंगेव विकास तिवारी, समाजसेवी राजेश पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल श्री राम महायज्ञ के हवन कार्यक्रम में हुए शामिल

रीवा। प्रसिद्ध संत श्री सनकादि महाराज के सानिध्य ने आयोजित किये जा रहे 1008 कुण्डीय श्री राम महायज्ञ के महापूर्णाहुति कार्यक्रम में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने हवन किया तथा भण्डारा में प्रसाद ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि झलबदरी आश्रम रीवा में 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किये गये श्री राम महायज्ञ के समापन अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने हवन, भण्डारा के उपरांत संत श्री सनकादि महाराज से आशिर्वाद प्राप्त किया।



मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत शिविरों का हुआ आयोजन

रीवा। मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान 26 जनवरी तक संचालित किया जायेगा। अभियान के तहत शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिये शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाये जा रहे हैं। शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। विभिन्न विभागों की योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को लाभ भी दिलाया जा रहा है। आमजनों को योजनाओं का लाभ लेने व अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिये विभिन्न माध्यमों से जागरूक भी किया जा रहा है।

कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर जनपद सिरमौर सीएफटी के जामू, शाहपुर, जनपद रायपुर कर्चुलियान सीएफटी के सगरा, पुरैना, मनकहरी, जनपद रीवा सीएफटी के रुपौली, सोनौरी, जनपद गंगेव के पटना, महमूपुर, जनपद ल्येंधर सीएफटी के सरई, सूती, सरई, सोहरवा,



रेही, चौखड़ा, पटहटकला, बरहा, कूड़ी, गोदकला, गोदखुर्द तथा जनपद जवा सीएफटी के सितलहा व नगमा में शिविर का आयोजन किया गया। ल्येंधर के ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविर में 130 आवेदन प्राप्त हुए। जबकि सिरमौर जनपद अन्तर्गत शाहपुर ग्राम पंचायत में 54 तथा जामू में 35 आवेदन प्राप्त हुए। रायपुर कर्चुलियान अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में लगाए गए शिविरों में 45 आवेदन प्राप्त हुए। जन कल्याण पर्व के तहत आयोजित किए जा रहे शिविरों में संबल कार्ड, पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता के प्रकरण सहित राजस्व व

अन्य विभागों से संबंधित आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी शिविर में उपस्थित रहकर विभागीय योजनाओं का लोगों को लाभ दिलाने के साथ ही योजनाओं से परिचित भी करा रहे हैं। कूड़ी में आयोजित शिविर में खसरा वितरण किया गया। गंगेव जनपद के पटना में आयोजित शिविर का विधायक मनगवां इंजी. नरेन्द्र प्रजापति ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर गंगेव जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा ग्रामवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक नरेन्द्र प्रजापति ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर संचालित किए जा रहे मुख्यमंत्री जन अभियान कार्यक्रमों में लगाए गए शिविरों में अधिक लोग लाभ लें और शासन की योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने का कार्य विभागीय अधिकारी समन्वय बनाकर करें।

विधानसभा घेराव के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता भोपाल हुए रवाना

रीवा। जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण जिलाध्यक्ष इंजी. राजेन्द्र शर्मा एवं शहर अध्यक्ष लखनलाल खण्डेलवाल ने संयुक्त विज्ञापित जारी करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी का प्रदेश व्यापी विधानसभा का घेराव 16 दिसम्बर को हो रहा है जिसमें रीवा से भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रेन, बसों, एवं चार पहिया वाहनों से हजारों की संख्या में भोपाल के लिए रवाना हुए। जिला अध्यक्ष इंजी. राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि वर्तमान भाजपा की सरकार के कार्यकाल के 01 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के समय किये गये अपने वादों को पूर्ण करने में पूर्णतः असफल रही है, आजतक एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी की वादाखिलाफी, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, अजा, अजजा, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार किसानों की समस्याएं, बढ़ती हुई बेरोजगारी एवं अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया जायेगा। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में महापौर अजय मिश्रा बाबा, विधानसभा प्रत्याशी रमाशंकर सिंह, बबिता साकेत, विद्यावती पटेल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष गिरीश सिंह, संगठन मंत्री रवि तिवारी, रीवा जिले के समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवादल, एन.एस.यु.आई, अल्पसंख्यक विभाग एवं प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण, समस्त पार्षदगण, किसान कांग्रेस, सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल के लिए रवाना हुए। इसी कड़ी में मऊगंज जिले से भी प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधायक सुखेन्द्र सिंह बन्ना तथा जिलाध्यक्ष पद्मेश गौतम के नेतृत्व में भी हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रेन, बसों, एवं चार पहिया वाहनों से हजारों की संख्या में भोपाल के लिए रवाना हुए।

सांस्कृतिक धरोहरों का अवलोकन किया और अनूठी परंपराओं से हुए रूबरू

राज्यपाल मंगुभाई पटेल एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे औरछा

समय जगत, निवाड़ी। प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगुभाई पटेल आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर औरछा पहुंचे। औरछा प्रवास के दौरान उन्होंने सांस्कृतिक धरोहरों का अवलोकन किया और वहां की अनूठी परंपराओं से रूबरू हुए। राज्यपाल श्री पटेल ने अपने दौर की शुरुआत श्री रामराजा मंदिर में भगवान रामराजा के दर्शन कर की। यहां उन्होंने भगवानी पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और तस्खी की कामना की। मंदिर परिसर में उन्होंने स्थानीय पुजारियों और ब्रह्मजालों से बातचीत की। मंदिर दर्शन के बाद जहांगीर महल पहुंचे। जहां उन्होंने महल के अद्वितीय स्थापत्य कला और नक्काशी को देखकर इसकी प्रशंसा की। इसके बाद वह सातार घाट स्थित चंद्रशेखर आजाद स्मृति स्थल पहुंचे जहां चंद्रशेखर आजाद को नमन किया। प्रवास के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि औरछा भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और वास्तु कला का अद्वितीय केंद्र है। औरछा न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी स्थापत्य कला और प्राकृतिक सौंदर्य भी इसे विशेष बनाता है। चंद्रशेखर आजाद स्मृति



स्थल के बाद राज्यपाल श्री पटेल लक्ष्मी मंदिर पहुंचे। जहां उन्होंने मंदिर में मौजूद प्राचीन भित्ति चित्रों और दीवारों पर की गई अद्वितीय कलाकृतियों को देखा। उन्होंने कहा कि यह चित्रकला भारतीय संस्कृति और इतिहास की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास करने की बात कही। भ्रमण के अंतिम पड़ाव में राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से चलाए जा रहे लाडपुरा खास स्थित महुआ हिल व्यू होम स्टे

पहुंचे। जहां पर होमस्टे संचालक श्रीमति उमा पाठक ने होमस्टे की संचालन प्रक्रिया की जानकारी दी। यहां उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को होमस्टे की विशेषताओं और पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने की जरूरत बताई। इस अवसर पर उन्होंने बुंदेली व्यंजनों का स्वाद लिया और उसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बुंदेली व्यंजन अपनी विविधता और स्थानीय स्वाद के कारण अद्वितीय हैं और क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। इस दौरान श्री पटेल ने मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग एवं कलेक्टर महोदय के निर्देशन में संचालित हो रही बुंदेली पेंटिंग कार्यशाला के बच्चों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर बच्चों ने महामहिम राज्यपाल को उनका प्रतीकात्मक चित्र और बुंदेली पेंटिंग भेंट की। इस अवसर पर निवाड़ी विधायक श्री अनिल जैन, कलेक्टर श्री लोकाेश कुमार जांजिड़, एडसी श्री शशांक, पुलिस अधीक्षक डॉ. रायसिंह नरवरिया, एडसीएम निवाड़ी श्री अनुराग निगवाल, तहसीलदार औरछा श्री सुमित गुर्जर ओएसडी श्री अरविंद पुरोहित, श्री अखिलेश अयाचो सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

ग्राम मवई में असमाजिक तत्वों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त



समय जगत, दतिया। असमाजिक तत्वों के द्वारा भाण्डे जनपद क्षेत्र के ग्राम मवई में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षति ग्रस्त कर दिया था। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंच कर घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल ने भाण्डे एसडीओपी कार्गिक श्रवास्तव से मिला और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए प्रशासन से नई प्रतिमा लगाने के विषय पर भी चर्चा की। इस दौरान तहसीलदार, भांडे एसडीओपी एवं संबंधित थाने के प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी यदि 2 दिन के अंदर प्रशासन प्रतिमा नहीं लगवाता है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा आंदोलन कर अपनी मांगों एवं अधिकारों को मांगा जाएगा।

खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए प्रशासन से नई प्रतिमा लगाने के विषय पर भी चर्चा की। इस दौरान तहसीलदार, भांडे एसडीओपी एवं संबंधित थाने के प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी यदि 2 दिन के अंदर प्रशासन प्रतिमा नहीं लगवाता है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा आंदोलन कर अपनी मांगों एवं अधिकारों को मांगा जाएगा।

ओवरलोड वाहनों के निकलने से यातायात व्यवस्था हुई बेपटरी

कमल वासुरे समय जगत, बड़वाह। खरगोन जिले की तहसील बड़वाह की ग्राम पंचायत डालची स्थित सेल्दा में एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन सेल्दा एवं श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट डोगलिया मुंदी जिला खंडवा में स्थित है। दोनों प्लांटों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों जैसे साइलो एश व पौड एश को बलकर हाईवा टिप्पर ओवरलोड वाहनों का टेंडर कर्ताओं के द्वारा मनमानी करते हुए प्रतिदिन निमाड के खरगोन खंडवा बुरहानपुर बड़वानी जिले की विधानसभा से प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों का आवागमन संचालित हो रहा है। जिससे आम नागरिकों को सड़क मार्ग से अपने अपने दुपहिया सहित अन्य वाहनों से टालायात करते समय दुर्घटनाओं का हमेशा अंदेश बना हुआ रहता है। जिसको लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का जनहित में शिकायती आवेदन थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर को सौंपा गया।

परिवहन विभाग के नियमों को ताक में रखकर पूरे रास्ते भर राखड़ उठाते जाते हैं। पूर्व विधायक हितेंद्रसिंह सोलंकी ने शिकायत में बताया कि दोनों प्लांटों से प्रतिदिन टिप्पर बलकर वाहनों में साइलो (एश) पौड (एश) भरकर परिवहन विभाग के नियमों को ताक में रखकर पूरे रास्ते भर राखड़ उठाते व गिराते हुए ओवरलोड व अनफिट बाड़ी (एक्ससे बाड़ी) के द्वारा माल को गंतव्य



स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। जिसमें टेकेदार को आर्थिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से शासकीय प्लांटों के कर्मचारियों एवं जिला परिवहन अधिकारी द्वारा कुल्य किए जाने के कारण से आर्थिक लाभ पहुंचाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। साथ ही उनके द्वारा नेशनल हाइवे जिलाधीश के नामदेव ने बताया कि पर्यावरण विभाग के नियमों को ताक में रखकर दोनों संस्थानों से पौड एश राखड़ को टिप्पर वाहनों में त्रिपोलियन (त्रिपाल) से ढक्कर एक स्थान से गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। जबकि अत्यधिक चहरीले (अशिष्ट) पदार्थ को टिप्पर डंपर वाहनों में एसा ले जाना आम

पत्र का हमेशा हवाला दिया जाता है। जबकि एसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। ओवरलोड वाहनों को लेकर मामले की जांच होना अति आवश्यक है।

पर्यावरण विभाग के नियमों को ताक में रखकर खुलेआम वाहनों को दोड़ाया जा रहा। शिकायतकर्ता सुनील नामदेव ने बताया कि पर्यावरण विभाग के नियमों को ताक में रखकर दोनों संस्थानों से पौड एश राखड़ को टिप्पर वाहनों में त्रिपोलियन (त्रिपाल) से ढक्कर एक स्थान से गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। जबकि अत्यधिक चहरीले (अशिष्ट) पदार्थ को टिप्पर डंपर वाहनों में एसा ले जाना आम

नागरिकों के जीवन के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। अपशिष्ट पदार्थों को सिर्फ बलकर या क्लोज टिप्पर (मैकेनिकल बंद होने वाले डिब्बे) /ट्रक द्वारा ही ले जाया सकता है। त्रिपोलियन को ढकने के बाद भी एमपी पीजीसीएल एनटीपीसी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के अनुसार राखड़ को मात्र 10किमी दूरी तक ही ले जाने का नियम है। फिर भी नियमों को ताक में रखकर सैकड़ों किमी दूरी तक त्रिपाल ढक्कर ले जाया जा रहा है। वाहनों से उड़ने वाली राखड़ एवं गिरने वाली राखड़ से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही उसके कण से सांस लेने में तकलीफ भी होती है। उससे अलावा कृषि भूमि सहित सड़क मार्ग पर राखड़ गिरने से सड़कों को खराब किया जा रहा है।

सेवदा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हूं पूर्ण संकल्पित: विधायक

ग्राम छोटा पोस्ता में किया 15 लाख के विकास कार्य का भूमि पूजन



समय जगत, दतिया। सेवदा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पूर्ण संकल्पित हूं, क्षेत्र का एक भी गांव विकास में पीछे नहीं रहेगा। उक्त विचार सेवदा विधायक प्रदीप अग्रवाल ने ग्राम छोटा पोस्ता में 15 लाख के विकास कार्य का भूमि पूजन करते हुए व्यक्त किए। विधायक श्री अग्रवाल ने कहा

कि विकास निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है यह प्रक्रिया 2018 से 2023 तक रुक गई थी अब 2023 में आपने मुझे पुनः सेवा का अवसर दिया और प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार में विश्वास जताते हुए भाजपा की सरकार बनाई। इस सरकार में हमें मोहन यादव जैसा मुख्यमंत्री मिला जिन्होंने ग्रामों के

विकास की चिंता कर भरपूर राशि विधान सभा सेवदा को उपलब्ध कराने का कार्य किया। उसी क्रम में हम और आप ग्राम पंचायत मलियापुरा के ग्राम छोटा पोस्ता में 15 लाख लागत के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने भारत सरकार की चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं

जैसे प्रधानमंत्री आवास? योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, लाइली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, संबल योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कपिल शर्मा ने की विशिष्ट अतिथि के रूप में मानसिंह प्रजापति, शुभम धाकड़, राममिलन चौधरी, अखिलेश गुप्ता, पवन पाठक, चरण सेवक प्रजापति, राजू कुशवाहा, चंद्रपाल यादव, विजय गुप्ता, कमलेश गुप्ता, राजू कुशवाहा, माधव सिंह गुर्जर, इंदुपाल सिंह गुर्जर आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न ग्राम वासियों द्वारा विधायक के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं जिनका विधायक श्री अग्रवाल ने मौके पर ही निराकरण किया और उन्होंने सरपंच से कहा कि आगामी 5 वर्षों की कार्य योजना तैयार कर उपलब्ध कराये ताकि योजनाबद्ध तरीके से ग्राम के विकास कार्य स्वीकृत कराये जा सके।

दो दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 8779 मरीजों का हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

दमोह विधायक जयंत मलैया के सौजन्य से दो दिवसीय विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर संपन्न

दमोह। सर्वे भवन्तु सुखिन-सर्वे संतु निरामया-की भावना से जयंत मलैया विधायक दमोह के सौजन्य से एवं पीपुल्स रूप के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित पंडित के नेतृत्व में दो दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का समापन दमोह के ऑनस्वनि स्कूल पार एक्सिलेन्स, मलैया मिल परिसर में किया गया था। शिविर में भोपाल से आये लगभग 50 विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श एवं लगभग 180 पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा अपनी सेवाएं दी गईं। शिविर के दोनो दिन मिलाकर लगभग 8779 लोगों का ओपी डी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिसमें लगभग 1524 ईसीजी, 636 सोनोग्राफी, 2224 आर.बी.एस., 1082 डिजिटल एक्सरे, 6403 खून की जांच एवं निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। शिविर में लगभग 359 गंभीर मरीजों को चिन्हित किया है। जिन्हें आगे के इलाज हेतु भोपाल निःशुल्क भेजा जाएगा एवं इलाज उपरत

निःशुल्क वापस दमोह लाया भी जायेगा। शिविर में के पहले दिन मुख्य रूप से कलेक्टर दमोह सुधीर कुमार, पीपुल्स हॉस्पिटल के कार्यकारी निदेशक गुंजन जैन, कार्यकारी सहायक श्री कार्तिकेय सिंह, डॉ आर के दुबे, डॉ सिद्धार्थ सागर, डॉ संजीव महावर, डॉ तरुण प्रताप सिंह, डॉ अनुपम गौर, डॉ मो.इमरान खान, डॉ आशुतोष अग्रवाल, डॉ प्रजा जैन, डॉ अर्चना हरिवंशाल जैसे वरिष्ठ चिकित्सक के सहित ओजस्वीनी संस्थान के छात्रों, स्टॉफ द्वारा विभिन्न हेल्प डेस्क में अपनी सेवाएं दीं। शिविर में रमन खत्री, अखिलेश हजारी, कपिल सोनी, मनीष तिवारी, संतोष रोहित, देवेन्द्र सिंह, अभिलाष हजारी, धारका पटेल, भीम पटेल, संजू यादव, मोटी रैकवार, धर्मेन्द्र अहिरवार, विकास जैन, बूज सेन, पप्पू सिंह, मयंक वाधवा, अमित जैन, सुरजीत सिंह, किस्सू खरे, जयपाल सिंह, सैकड़ों की संख्या में सभी ने सेवाएं दीं।

लटेरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, रात्रि गश्त में सागौन की अवैध 25 सिल्लियां एवं साइकिलें की गईं जब्त

लटेरी। लटेरी पुलिस रात्रि में गश्त कर रही थी, गश्त के दौरान मुखबिरी की सूचना मिली कि कुछ लोग सागौन की सिल्लियां लेकर जा रहे हैं, इस बात की सूचना वन विभाग की टीम को भी थी जिसमें लटेरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा श्री रोहित काशवाना जी द्वारा संपर्कित संबंधी अपराधी एवं लकड़ी चोरी में लिप्त अपराधिक तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये है जिसके अनुक्रम में दिनांक 15.12.2024 को संध्यागो गश्त के दौरान जरिये मुखबिरी सूचना मिली की आनंदपुर तरफ से लकड़ी चोर जंगल से अवैध रूप से



सागौन के वृक्ष काटकर सायकिल से लटेरी तरफ आ रहे हैं। वन विभाग की टीम को भी विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये है जिसके अनुक्रम में दिनांक 15.12.2024 को संध्यागो गश्त के दौरान जरिये मुखबिरी सूचना मिली की आनंदपुर तरफ से लकड़ी चोर जंगल से अवैध रूप से सागौन के वृक्ष काटकर सायकिल से लटेरी तरफ आ रहे हैं। वन विभाग की टीम को भी विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये है जिसके अनुक्रम में दिनांक 15.12.2024 को संध्यागो गश्त के दौरान जरिये मुखबिरी सूचना मिली की आनंदपुर तरफ से लकड़ी चोर जंगल से अवैध रूप से

टारफ से लटेरी रवाना हुये जैसे ही पॉलिटी फॉर्म के पास पहुंचे तो कुछ लोग सायकिल पर सागौन की सिल्लियां रखकर लटेरी तरफ आ रहे थे पुलिस की गाड़ी को देखकर लकड़ी सहित सायकिल छोड़कर अंधेर का फायदा उठाकर भाग गये इसी दौरान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लटेरी अजय कुमार मिश्रा भी मौके पर पहुंचे मौके से जंगल से चोरी से

काटकर अवैध रूप से परिवहन कर सागौन की 25 सिल्लियां एवं 07 सायकिल को जब्त कर थाना पर लाया गया। पुलिस एवं वन विभाग की टीम संयुक्त रूप से अर्थद रात्रि से ही लकड़ी तस्करी तलाश कर रही है। प्रकरण सोनी एवं चालक प्रताप राजपूत तथा बलबोर अहिरवार सूचना की तस्दीक हेतु आनंदपुर

पंडित एसएन शुवल विश्वविद्यालय शहडोल में आयोजित किया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह

समय जगत, शहडोल। पंडित एसएन शुवल विश्वविद्यालय शहडोल में मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 7 दिसंबर से 14 दिसंबर तक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन माननीय कुलगुरु प्रोफेसर रामशंकर जी के मार्गदर्शन एवं माननीय कुल सचिव प्रोफेसर आशीष तिवारी के निर्देशन में डॉक्टर योगिता बसेने द्वारा किया गया इसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजन समिति ने विश्वविद्यालय महाविद्यालय के साथ-साथ विद्यालय के विद्यार्थियों को भी शामिल किया। इस संदर्भ में विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु तीन संवर्गों में प्रतियोगिताओं का वृहद आयोजन किया गया। पहले समूह कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए रखा गया जिसमें विद्यार्थियों ने ऑनलाइन भागीदारी कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बड़-चढ़कर सभी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। विद्यालय के प्राचार्य ने संस्था के स्तर पर समन्वयक नियुक्त कर विभिन्न गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया इन



प्रतियोगिताओं में शासकीय बालक हाई स्कूल सोहागपुर, शासकीय हाई स्कूल कंचनपुर, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुद्धर तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रघुराज क्रमांक 2 के प्राचार्य ने सहयोग कर संस्था में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया। दूसरे वर्ग में महाविद्यालय के विद्यार्थियों को शामिल करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था जिसकी पूर्ति हेतु संभाग के विभिन्न महाविद्यालय के प्राचार्य से सहयोग प्राप्त हुआ इस कड़ी में शासकीय महाविद्यालय बिरसिंहपुर पाली, शासकीय पंडित अटल बिहारी वाचपेई महाविद्यालय जयसिंहनगर, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल, शासकीय पीएम श्री उत्कृष्ट

आयोजन भी किया गया जिसमें विद्यार्थियों ने असामान्य चिंतन एवं प्रतिभा का परिचय देते हुए विभिन्न प्रकार के मॉडलों का सर्जित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में 500 विद्यार्थियों ने सहभागिता की जिसमें ऑनलाइन दिवस एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अर्चना सिंह, प्रिंसिपल साइटेस्ट ने अपने विचार साझा किया जिससे विद्यार्थियों एवं सामान्य जन को अपनी ऊर्जा को आवश्यकता के लिए व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास किया जाना चाहिए इस पर अपने विचार साझा किया दूसरे वक्ता के रूप में मिस्टर प्रशांत भवरे निदेशक वीनटेक नॉलेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली ने सस्टेनेबिलिटी इन द बिल्ट एनवायरमेंट अप्रोचों फॉर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग विषय पर अपने विचार रखे की किस तरह हम ऊर्जा दक्ष सामग्री एवं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का व्यावहारिक रूप से प्रयोग कर जल एवं चक्रा प्रबंधन जैसे कार्यों में कुछ क्रियात्मक पहल कर सके कार्यक्रम में हिंदुस्तान पावर लिमिटेड के डायरेक्टर श्री यशोधरधनम जी ने भी अपने विचार साझा किए।

कार्यालय कार्यापालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छतरपुर (म.प्र.)

Email : eepwcdhatar@mp.nic.in, Fax No. : 07682-246518, Phone No. 07682-246516						
निविदा सूचना						
निविदा सूचना क्रमांक 08 / 2024-25			छतरपुर, दिनांक 12 / 12 / 2024			
निम्नलिखित कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।						
स.क्र	टेंडर आर्डर डी क्रमांक	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (क.आर.के.)	रिमांक
1	2024.PWD RB-387794	निर्माण कार्य	लोक निर्माण विभाग संभाग छतरपुर अंतर्गत बागेश्वर धाम में लिंक रोड क्रमांक-01 लंबाई 0.25 कि.मी., बागेश्वर धाम में लिंक रोड क्रमांक-02 लंबाई 0.30 कि.मी., बागेश्वर धाम में लिंक रोड क्रमांक-03 लंबाई 0.35 कि.मी., बागेश्वर धाम में लिंक रोड क्रमांक-04 लंबाई 0.40 कि.मी. एवं बागेश्वर धाम में लिंक रोड क्रमांक-05 लंबाई 0.33 कि.मी.का निर्माण कार्य, (कुल लंबाई 1.63 कि.मी.)	प्रथम	397.23	वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
योग						397.23
उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा पत्र (एम्बर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा पत्र ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि 26/12/2024 एवं ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26/12/2024 (17.30) बजे निर्धारित है। निविदा दिनांक 28/12/2024 को कार्यालय मुख्य अतिथि, लो.नि.वि. संभाग छतरपुर में खोली जायेगी। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।						
(राजकोषीय मुद्रा) कार्यापालन यंत्री, लो.नि.वि.(भ/स) संभाग छतरपुर (म.प्र.)						
स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता						
G-20267/24						

हतनापुर हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों के विद्यालय नहीं आने से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई हो रही है चौपट

समय जगत, सिलवानी। ब्लॉक के ग्राम हतनापुर देवरी में शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल का है। ग्रामीणों के मुताबिक विद्यालय एक हफ्ते में लगभग दो या तीन दिन खुलता है। ज्यादा समय स्कूल बंद ही रहता है दिन शनिवार को हायर सेकेंडरी स्कूल भवन देवरी हतनापुर 12-30 बजे हायर सेकेंडरी स्कूल में ताले डाले थे और स्कूल से शिक्षक गायब थी वर्तमान में हतनापुर देवरी स्कूल में प्राचार्य प्रभारी रूप सिंह पौते सहित सात अतिथि शिक्षक स्कूल में पदस्थ हैं जो हफ्ते में कभी कभार छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए दो तीन दिन हतनापुर देवरी स्कूल आते हैं।

ज्यादातर स्कूल में ताला डाला रहता है जिसके कारण छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं शिक्षकों की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व में भी जिले के अधिकारियों से स्कूल भवन बंद तथा शाला प्रभारी सहित सात अतिथि शिक्षकों के स्कूल नहीं आने को लेकर शिकायत भी की जा चुकी है लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के 180 छात्र छात्राएं स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं हतनापुर देवरी



हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ शाला प्रभारी रूप सिंह पौते सहित 7 अतिथि शिक्षक इसके बाद भी स्कूल भवन में तारे डाले हुए हालात यह है कि बच्चे बैंग टांगे स्कूल के ताला लगे गेट पर शिक्षकों का इंतजार करते रहते हैं और कई बार जब शिक्षक 12 बजे तक भी नहीं

आते तो बच्चे वापस घर लौट जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई सालों से विद्यालय में कोई सुधार नहीं हुआ। लगातार शिकायत के बाद शिक्षा विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। अतिथियों और साला प्रभारी की मिलीभगत से शिक्षक कर रहे मौज ग्रामीणों का कहना है कि शासकीय विद्यालय में शिक्षकों की आपसी मिलीभगत से संचालन होता है। अधिकतर स्कूलों में शिक्षकों का हाल यह है कि पूरे स्टाफ के तालमेल से

कुछ शिक्षक चिन्हित दिनों तक विद्यालय आते हैं बाकी अन्य शिक्षक घर बैठे वेतन प्राप्त करते हैं। इसी तरह शिफ्ट के रूप में शिक्षक विद्यालय आते हैं। ग्रामीणों ने कहा हम खुद परेशानी उठाकर अपने बच्चों को हतनापुर देवरी हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ाने के लिए भेजते हैं। इनका कहना है मीडिया के माध्यम से हतनापुर देवरी हायर सेकेंडरी स्कूल भवन में ताले लगे होने की जानकारी मिली है शीघ्र जांच कर कर शिक्षकों पर कार्रवाई की जायेगी। नरेश खुरशी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सिलवानी

एक पेड़ लगाना, एक स्थायी स्मृति बनाना है: राधा सिंह



समय जगत, भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के मंडप परिसर में राष्ट्र सेवक के नाम राष्ट्र उत्थान में प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण में 1100 वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती राधा सिंह ने गुलार का पौधा रोप कर किया। एक पेड़ माँ के नाम . एक हजार पेड़ मोदी जी के नाम से एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन अवसर पर माननीय मंत्री ने कहा की पर्यावरण की सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित एक पेड़ माँ के नाम से समुदाय के साथ जुड़व और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर बनाते हुए स्थायी जीवनशैली की महत्ता को प्रोत्साहित किया जाना है। इस अभियान का उद्देश्य माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना और एक स्थायी स्मृति बनाना है जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा

बल्कि एक हरे और अधिक समृद्ध भविष्य के निर्माण में भी योगदान देगा। इस अवसर पर संग्रहालय के निदेशक प्रो अमितभा पांडे ने बताया कि मानव संग्रहालय समुदाय का संग्रहालय है। हम सभी समुदाय के लोगो से अपील करते हैं कि जिस तरह माननीय मंत्री के साथ आम जन आकर अपने माँ के नाम पौधा रोपे हों वैसे ही सभी समुदाय के लोग आकर इस विशाल परिसर में पौधा रोपे। साथ ही प्रकृति के पोषण के लिए धरती माता और मानव जीवन के पोषण के लिए हमारी माताओं का सम्मान करें। इस अवसर पर विशेष सोनी के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं मानव संग्रहालय के अधिकारी उपस्थित होकर अपने अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाए। कार्यक्रम का संयोजन संग्रहालय के सुशिक्ष एवं बागवानी एव तटीय गाँव मुक्ताकाश प्रदर्शनी अनुभाग ने किया था।

साक्षिप्त समाचार



समय जगत, बिरतान। कुछ दिन बादल छाए रहने व गर्मी के बाद अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। रात में ठंडी हवा चलने के बाद लोग ऊनी वस्त्र पहने दिखाई दे रहे हैं। वहीं खुले में रहने वाले लोग ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। नगर के प्रमुख चौराहा बस स्टैंड व अन्य स्थानों पर भी अलाव जला कर रात में ठंड से बचने के प्रयास किये जा रहे हैं।

एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल के स्मृति दिवस पर किया नमन



समय जगत, महोबा। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ के आदेश के क्रम में, पुलिस अधीक्षक महोबा पलाश बंसल के निदेशन में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार बलभ भाई पटेल जी के जन्म दिनांक 31 अक्टूबर, 1875 से वर्ष 2025 तक 150 वर्ष पूर्ण होने पर 2024 से 2025 तक 150 वीं जयंती वर्ष पर्यन्त मनाने जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें प्रस्तावित कार्यक्रम में शहीद राकेश कुमार चौरसिया सहायक कमांडेंट सीआरपीएफ, जगदीश प्रसाद यादव कमांडो आर्मी तथा दिनेश बुधौलिया डिप्टी कमांडेंट सी.आर.पी.एफ. के शहीद स्थलों पर 12 वीं वाहिनी पीपीसी फतेहपुर के बैंड द्वारा राष्ट्रभक्ति गीत/राष्ट्रधुन की प्रस्तुति कर शहीदों को याद कर नमन किया गया।

प्रथम महिला टी-10 क्रिकेट लीग प्रतियोगिता में कन्या महाविद्यालय रहा विजेता

समय जगत, शिवपुरी। श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला खेल परिसर में भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अकेडमी का संचालन किया जा रहा है। शहर में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14 दिसंबर को खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से प्रथम 3-10 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन स्टेडियम में किया गया।



इस प्रतियोगिता में पीजी कॉलेज, कन्या महाविद्यालय, एनसीसी बटालियन और पिछेरी की टीम शामिल हुई। चारों टीमों के मध्य लीग आधार पर मैच आयोजित हुए जिसमें फाइनल मैच पीजी कॉलेज एवं कन्या महाविद्यालय शिवपुरी के बीच खेला गया। इस मैच में टॉस जीत कर कन्या महाविद्यालय शिवपुरी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 88 रन बनाए। दुर्गेश रावत ने शानदार अर्ध शतकीय पारी खेली और 51 रन बनाए एवं अन्य बल्लेबाजों की मदद से 88 का स्कोर बनाया। पीजी कॉलेज की टीम त्रिषिका राजावत ने दो विकेट और अंजलि परमार ने एक विकेट लिया। कन्या महाविद्यालय के 88 रनों के जवाब में पीजी कॉलेज की टीम 76 रन पर सिमट गई। टीम ने शुरुवात अच्छी की और टीम की तरफ से इनमें अंजलि परमार ने 30 और वंशिका ने 35 रन का योगदान दिया लेकिन कन्या महाविद्यालय की घातक गेंदबाजी से पी जी कॉलेज के बाकी बल्लेबाज जल्दी आउट हुए और इस प्रकार यह टूर्नामेंट कन्या महाविद्यालय ने 12 रन से जीत लिया। पूरे टूर्नामेंट के में न ऑफ़ डे सीरीज दुर्गेश रावत रहीं, जिन्होंने पूरे प्रतियोगिता में अच्छे बैटिंग करते हुए शतक रन बनाये। विजेता और उपविजेता टीम को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। मैच के समापन के अवसर पर जिला खेल अधिकारी डॉ के के खरे, नगर की समाजसेवी और एकल अभियान की महिला उपाध्यक्ष ज्योति मजेजी एवं समाजसेवी रितु गोयल तथा विभाग की हॉकी कोच गीता लखरे ने सभी टीमों को पुरस्कार वितरण किया।

निपुण भारत मिशन: उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर महानिदेशक ने खंड शिक्षा अधिकारी को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित



महोबा। उत्तर प्रदेश शासन और बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालयों में संचालित निपुण भारत मिशन कार्यक्रम अंतर्गत जनयद में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले विकास खंड कबरई के खंड शिक्षा अधिकारी अरुण शर्मा यादव को शनिवार को मरकरी हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में महानिदेशक कंचन वर्मा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया ज इस मौके पर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित सभी शिक्षकों ने बधाई दी। अरुण शर्मा यादव के साथ

सीएम के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने 500 यूनिट से अधिक ब्लड किया डोनेट

समय जगत, धौलपुर। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन समूचे प्रदेश में भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेताओं द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। धौलपुर जिले में भी मुख्यमंत्री का जन्मदिन कार्यक्रमों द्वारा हर्ष उल्लास पूर्वक मनाया है। मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाकर ब्लड डोनेट किया है। जिला कलेक्टर और भाजपा जिला अध्यक्ष ने रक्तदान कर समाज के युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने बताया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन राजस्थान प्रदेश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर भी कार्यक्रम किए गए हैं। भजनलाल सरकार ने 1 वर्ष के शासनकाल में सभी वर्गों के हित में काम किया है। सड़क, बिजली, पानी, खेती किसानों, शिक्षा चिकित्सा आदि बुनियादी ढांचा प्रदेश का मजबूत हो रहा है। राजस्थान प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के



अवसर भी सृजित किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया रिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन हर्ष उल्लास पूर्वक

समूचे राजस्थान प्रदेश में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने मनाया है। धौलपुर, बाड़ी, राजाखेड़, सरमथुरा, बसेड़ी, बसई नवाब, सैपऊ, मनिया, मांगरोल समेत संपूर्ण जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान शिविर लगाकर ब्लड डोनेट किया है। करीब 500 यूनिट ब्लड कार्यक्रमों में दान किया है। जिसे जरूरतमंद लोगों के लिए जिला अस्पताल को दिया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बोटी ने भी रक्तदान कर युवाओं को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया है। कलेक्टर ने कहा रक्तदान से बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता है। रक्तदान महानदान की श्रेणी में आता है। एक ब्लड यूनिट से जरूरतमंद व्यक्ति की जान बच सकती है। उन्होंने कहा समाज के युवा रक्तदान करने के लिए आगे आए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर, भाजपा नेता डॉ शिवचरण कुशवाहा, भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, कल्पना शर्मा, मुकेश शर्मा आदि शामिल रहे।

बेसिक शिक्षा का पांच दिवसीय नोडल टीचर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

समय जगत, महोबा। बेसिक शिक्षा विभाग के कबरई विकास खण्ड के 152 प्रधानाध्यापकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विवेकानंद महाविद्यालय खतरपुर रोड महोबा में 11 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलाया गया, जिसमें दिव्यगता के सभी क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा विकास खण्ड कबरई के प्रधानाध्यापकों को, दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रशिक्षित किया गया। मानसिक मंदता के मास्टर ट्रेनर सुनील दीक्षित ने प्रशिक्षुओं को, दिव्यांग शिक्षण में नोडल टीचर्स की भूमिका एवं प्रबंधन के विंदु बताए, इसी क्रम में श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा की विशेषज्ञ कंचन शुक्ला ने शीघ्र हस्तक्षेप, लक्षण, निदान एवं विशेष शिक्षण में अभ्यास की भूमिका पर प्रकाश डाला एवं स्पेशल टीचर नगर क्षेत्र हीरामनी मौर्या ने सांकेतिक भाषा के नियम बताए। टीचर कबरई



अनुज तिवारी ने ब्रेल लिपि की वर्णमाला सभी को विस्तार से समझाई। दिनेश चौहान ने मानसिक मंदता के प्रबंधन पर चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में खंड शिक्षा अधिकारी कबरई अरुण शर्मा यादव ने सभी अध्यापकों को समेकित पटल से संबंधित राज्य

परियोजना कार्यालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में सजगता रखने का संदेश दिया एवं समापन की घोषणा कर पूरे समय उपस्थिति हेतु शिक्षक गण की सराहना की। अध्यापकों में प्रशिक्षण लेने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रधानाध्यापिका रामकुमारी नायक सहित, ओम प्रकाश तिवारी, सुशील त्रिपाठी, रमाकांत मिश्रा, नीतू रावत, मनोज कुमार साहू, ब्रजकिशोर मिश्रा, नूतन मिश्र, नारायण दास सैनी, सुशीला पाल, गोल्डी सिंह, गोमती नामदेव, आभा मिश्रा, विजय कुमार वर्मा, सियाराम, शशिभूषण त्रिपाठी, रुचि सिंह, लाल मुहम्मद, जयसिंह कुशवाहा, रज्जाक, ओ पी तिवारी टी अली तथा अजमत की प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति रही।

ग्राहक दिवस पर मनाएंगे ग्राहक जागरण पखवाड़ा



समय जगत, महोबा। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महोबा मनाएगा ग्राहक जागरण पखवाड़ा 24 दिसंबर को ग्राहक दिवस है इस मौके पर 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ग्राहक जागरण अभियान चलाया जाएगा जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों तथा आम नागरिकों को साइबर टगी से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा जिसमें अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महोबा के सदस्य जितेंद्र शुकुल कुलदीप नागायक विकास सिंह शुभम सिंह माधव खरे अरुण शर्मा मनीज राजपूत प्रशांत उपाध्याय व जिला कार्यकारिणी के सदस्य तथा साइबर थाना प्रभारी फार्मिड व उनकी टीम रहेगी।

श्री राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा एवं श्री राम महायज्ञ में विशाल कन्या भोज एवं भंडारे का हुआ आयोजन



कुलपहाड़ (महोबा)। श्री राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा एवं श्री राम महायज्ञ आयोजन के अंतिम दिन श्री श्री 1008 बर्धनिया सरकार मंदिर में एक सप्ताह तक चले धार्मिक कार्यक्रम के अंतिम दिन मंदिर प्रांगण में विशाल कन्या भोज एवं भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें समस्त ग्राम वासियों ने तन मन धन से सहयोग किया ज्ञात हो श्री श्री 1008 बर्धनिया सरकार मंदिर में महावीर हनुमान जी का विशाल मंदिर एवं भगवान शंकर जी का मंदिर पूर्व से स्थापित है नगर वासियों के सहयोग से इस मंदिर प्रांगण में श्री राम जानकी भगवान की भव्य मूर्तियां नवीन मंदिर निर्माण करके किया

चालक ने अनियंत्रित होकर दुकान में घुसाया ट्रैक्टर, बाइक हुई चकनाचूर

कोलारस। कोलारस के ऐबी रोड स्थित उत्सव वाटिका के सामने अभि ट्रैक्टर की दुकान में शराब के नशे में धुत होकर ट्रैक्टर चालक ने अनियंत्रित होकर दुकान में ही घुसा दिया ट्रैक्टर, जानकारी के मुताबिक दोपहर के समय उत्सव वाटिका के सामने एक तेज अज्ञात रफतार शराब के नशे में चला रहे ट्रैक्टर चालक ने एक कार बचाने के चक्र में अनियंत्रित होकर अभि ट्रैक्टर की दुकान में ही अंदर घुसा दिया ट्रैक्टर दुकान में सामान की खरीदारी करने वाले ग्राहक कल्लू पुत्र लालसिंह ग्राम कांकरा पंचायत बैडारी हीरो डीलवस एमपी 33 रू०42 की मोटरसाइकिल दुकान के बाहर खड़ी हुई थी अचानक तेजी से आए हुए अज्ञात ट्रैक्टर ने गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया जिससे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है वहीं दूसरी ओर एक और जसवंत सिंह ग्राम सेमई मामूली घायल हुए हैं जसवंत ने बताया कि हम प्रतिदिन दूध बेचने आते हैं पशुओं को खिलाने के लिए पशु आहार लेने के लिए दुकान पर खरीदारी करने गए हुए थे मेरी गाड़ी बाहर रखी हुई थी अचानक एक तेज रफतार से सोनालिका ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर आया पास में रखी हुई गाड़ी के कारण मेरे हाथ कओर पैरों में चोट आई है वहीं ट्रैक्टर को कड़ी मशकत से पुलिस अमले ने दुकान से बाहर निकाला कोलारस पुलिस ने मामला विवेचना में लिया है।

5000 विद्यार्थियों ने बनाया सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का वर्ल्ड रिकार्ड

समय जगत, खरगोन। देशवासियों की सुख, समृद्धि की कामना को लेकर शनिवार को करीब 5 हजार विद्यार्थियों ने एकसाथ, एक स्वर में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर अनूठ रिकार्ड बनाया है। हनुमान चालीसा का यह पाठ आदित्य इंटरनेशनल स्कूल में हुआ है। जहां करीब 20 स्कूलों के विद्यार्थियों ने एक स्वर में संगीतमय हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ किया।



संचालक अशोक दीक्षित ने कहा कि हनुमानजी संकटमोचक हैं तथा भक्ति, शक्ति और संकल्प के देवता हैं। सामूहिक पाठ और प्रार्थना से पूजनशक्ति कई गुना सशक्त हो जाती है। 20 स्कूलों के लगभग पांच हजार विद्यार्थियों ने इस प्रार्थना के साथ हनुमान चालीसा के तीन आवर्तन कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में यह उपलब्धि दर्ज करवाई। कार्यक्रम मनोज खुरशी, राजेंद्र परसाई ने भी संबोधित किया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड के प्रतिनिधि मनोज कुमार शुक्ला ने उपस्थित विद्यार्थियों के समक्ष वर्ल्ड रिकार्ड्स की घोषणा की। इस दौरान बबलू पाल, राजेंद्र सोनी, नितिन मालवीय, राजू शर्मा, सुनील शर्मा, आशुतोष पुरोहित, अशोक सिंह पंवार, दीपक सोनी, सचिन सोलंकी, कैलाश अग्रवाल, भार्गव कुमारवत, दशरथ पटेल, रणु राय, भोलू कर्मा, अलेक मेहता, उपस्थित थे। विद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्रसिंह पुण्डरी ने आभार व्यक्त किया।

कलेक्टर ने सात अपाजर्न केन्द्रों का जिम्मा महिला स्वसहायता समूह को सौंपा

पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान अपाजर्न के लिए जारी निर्देशों के तहत सात खरीदी केन्द्रों का आवंटन महिला स्वसहायता समूहों को सौंपा गया है। जिसके तहत रैपुरा तहसील में बंजारी माता स्वसहायता समूह हनुआ पटेल को कृषि उपज मण्डी रैपुरा, जय श्री राम स्वसहायता समूह झांझर को ग्राम बंधवार कला प्रांगण, सरस्वती स्वसहायता समूह कृष्णागढ़ को ग्राम मलधन प्रांगण तथा जय मां जोगनी स्वसहायता समूह मोहनदा को रावतपुरा वेयरहाउस मनायुवा खरीदी स्थल आवंटित किया गया है। इसी तरह शाहनगर तहसील में सन्यासी बाबा स्वसहायता समूह शाहनगर को ग्राम बोरि प्रांगण, सिमरिया तहसील में शिवमंडल स्वसहायता समूह मोहनदा को सिमरिया मण्डी पैक्स गोदाम और गुनौर तहसील में सुधमा स्वसहायता समूह खमरिया द्वारा कृषि उपज मण्डी प्रांगण गुनौर में खरीदी कार्य संचालित किया जाएगा। उक्त खरीदी केन्द्रों की अपाजर्न धान का प्रदाय



सर्वप्रथम खरीदी केन्द्र स्थल से सीधे मिलर्स को होगा। इसके उपरांत अपाजर्न धान का शासकीय गोदामों में परिवहन कर भण्डारण कराया जाएगा। स्वसहायता समूहों सहित अपाजर्न कार्य से जुड़े समस्त विभागों को शासन के निर्देशानुसार अपाजर्न केन्द्र स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करकर किसानों को अपाजर्न कार्य सुचारु रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि आगामी 20 जनवरी तक धान अपाजर्न का कार्य सोमवार से शुरूवार तक सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक

किया जाएगा। अपाजर्न धान के त्वरित भण्डारण के निर्देश जिले में गत 2 दिसम्बर से प्रारंभ धान अपाजर्न अंतर्गत अब तक 1 लाख 30 हजार 68 क्विंटल धान का अपाजर्न हो चुका है, जबकि अब तक मात्र 21 हजार 299 क्विंटल धान का भण्डारण हो सका है। जिला प्रबंधक स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन एवं वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा मिलर्स से अनुबंध निष्पादित कर खरीदी केन्द्रों से धान प्रदाय शुरू नहीं करने के कारण परिवहन एवं भण्डारण कार्य सुचारु

रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा अपाजर्न धान का त्वरित रूप से गोदाम में भण्डारण और मिलर्स को प्रदाय करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि जिले में 29 गोदाम स्तरीय खरीदी केन्द्र संचालित हैं, जबकि समिति स्तरीय 18 केन्द्र संचालित हैं। जिला कलेक्टर द्वारा भी धान अपाजर्न, भण्डारण एवं परिवहन की समीक्षा कर रिवार सायं तक अपाजर्न मात्रा के विरुद्ध शत प्रतिशत गोदामों में भण्डारण व मिलर्स को प्रदाय करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसानों को त्वरित भुगतान प्रारंभ हो सके। अपाजर्न कार्य का दिया प्रशिक्षण कलेक्टर कार्यालय पत्रा के सभागार में शनिवार को समूह की महिलाओं को धान अपाजर्न से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला प्रबंधक नान एवं सर्वेयर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में अपाजर्न प्रक्रिया, फसल गुणवत्ता, ई अपाजर्न पोर्टल तथा वाइड जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया गया।

पूर्व मंत्री ने जनसमस्या निवारण शिविर में हितग्राहियों को वितरित किये हितलाभ गढ़ौला जागीर में सीएम राइज स्कूल नई पीढ़ी के लिए है बड़ी उपलब्धि: भूपेंद्र सिंह

समय जगत, खुरई। गढ़ौला जागीर प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत है जहां 38 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल बनवाया गया है। आगे चलकर यहां नान परिषद, महाविद्यालय, टप्पा तहसील जैसी सुविधाएं तेजी से विकसित होंगी। यह बात पूर्व गृहमंत्री, खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने यहां आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में आए हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कही। पूर्व मंत्री श्री सिंह ने शिविर में यहां राशन वितरण की दूसरी दूकान खोलने, 5 लाख की लागत से यात्री प्रतीक्षालय बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राहियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हितलाभ के चेक, स्वीकृति पत्र व प्रमाण पत्र वितरित किए। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि गढ़ौला जागीर



एतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कस्बा है। यहां के दाम्नी राजाओं ने गढ़ौला जागीर, खुरई और एरण परगनों में किले, गढ़ियां, बड़े बड़े तालाब और अनेक जलसंरचनाएं बनवाई थीं। हम सभी का दायित्व है कि हम इन जल संरचनाओं का संरक्षण करें और नई जल संरचनाओं को बनवाएं।

उन्होंने कहा कि आज गढ़ौला जागीर के विकास और बढ़ती आबादी के लिए पेयजल आपूर्ति की वर्तमान नल जल योजना पर्याप्त नहीं है। गढ़ौला जागीर को जल जीवन मिशन योजना में जोड़ने के लिए कार्यवाही की जाएगी ताकि यहां भी हर घर में नल से पर्याप्त और शुद्ध पेय जल मिल सके।

जेके सीमेंट प्लांट के सामने हादसे में एक व्यक्ति की मौत का मामला

भाजपा विधायक की उपस्थिति में पुलिस ने किया लाठीचार्ज

समय जगत, पन्ना। वर्तमान समय में लगता है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार तथा शासन प्रशासन प्रजातंत्रिक रूप से नहीं चल रहा है, पुलिस तथा प्रशासन को सरकार द्वारा मनमाने ढंग से चलाने के आदेश दिए गये हैं। इसी कारण पन्ना जिले में भी नियम कानून नाम की कोई चीज नहीं है, पुलिस तथा प्रशासन उद्योग पतियों एवं सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं के इशारे पर काम कर रहा है, आम जनता पर लाठी चार्ज रहा है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान बेरोजगार, गरीब, वर्ग के लोग भारी परेशान हैं, पन्ना जिले में अधिकारी कर्मचारियों का बोल बाला है, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है, अभी कुछ दिन पूर्व पत्रकारों द्वारा एक आन्दोलन किया गया था, जिसमें एक थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई थी। लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, अब तो सत्ताधारी दल के विधायकों की उपस्थिति



में ही आम जनता पर किसानों पर मजबूरों पर पुलिस द्वारा लाठियां वर्षाई जा रही हैं, इसी प्रकार का मामला 13 दिसम्बर को सामने आया, अमानगंज तहसील अन्तर्गत पुरैना में स्थित जेके सीमेंट प्लांट के सामने डम्पर द्वारा एक गरीब को टक्कर मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसका नाम शेल्तू सेन उम्र 25 वर्ष है, जो मोटर साईकिल से अपने घर पगरा जा रहा था, मौत हो

जाने के बाद क्षेत्रीय ग्रामीणों में जेके सीमेंट प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया एवं ग्रामीणों ने शव वर्मा ने मामले को शांत कराया, तथा वह स्वयं ग्रामीणों के साथ जेके सीमेंट कंपनी के गेट के सामने धरने पर बैठ गया। जानकारी लगने के बाद कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर पहुंचे रात्रि दस बजे तक दोनों पक्षों में वार्तालाप हुआ।

सहित रोजगार देने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा विधायक की मांग को अनसुना करते हुए बिना किसी आदेश के विधायक की उपस्थिति में ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया गया तथा ग्रामीणों को जानवरों की तरह पीटा गया। उक्त घटनाक्रम के दौरान दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। साथ में ही विधायक का अंग रक्षक भी बुरी तरह घायल हो गया है। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने भी पुलिस पर पत्थर बाजी राजपुर एवं थाना सेंधवा शहर की पुलिस टीम ग्राम सिलोटीया चोरी के संदिग्धों की तलाश में पहुंची थी। काकड फलिया में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश के दौरान प्रकाश पिता भुरला एवं गोविंद पिता मांगीलाल, तेजल पिता गमा, सुरेश पिता तेजला सभी निवासी सिलोटीया द्वारा अन्य आरोपीगणों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर पत्थरो से हमला कर दिया था। उक्त हमले में पुलिसकर्मियों चोटें आई थी। इस मामले में पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, जिसमें चार माह से फरार प्रकाश पिता भुरला, गोविंद पिता मांगीलाल दोनों को घेराबंदी कर ग्राम सिलोटीया से गिरफ्तार किया है। पुछताछ में थाना बलकवाड़ा में चोरी करना भी कबुल किया। आरोपियों को कोर्ट पेश किया गया जहां से उन्हें जिला जेल खरगोन दाखिल किया गया।

पुलिस पर किया था पथराव, 4 माह बाद पकड़ाए फरार आरोपी



समय जगत, खरगोन। चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ग्राम सिलोटीया पहुंची सेंधवा और राजपुर पुलिस पर पथराव करने के मामले में पिछले 4 माह से फरार आरोपी पुलिस के हथिये चढ़े हैं। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरुड थाना पुलिस से मिली जानकारी अनुसार 3 अगस्त 2024 को थाना राजपुर एवं थाना सेंधवा शहर की पुलिस टीम ग्राम सिलोटीया चोरी के संदिग्धों की तलाश में पहुंची थी। काकड फलिया में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश के दौरान प्रकाश पिता भुरला एवं गोविंद पिता मांगीलाल, तेजल पिता गमा, सुरेश पिता तेजला सभी निवासी सिलोटीया द्वारा अन्य आरोपीगणों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर पत्थरो से हमला कर दिया था। उक्त हमले में पुलिसकर्मियों चोटें आई थी। इस मामले में पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, जिसमें चार माह से फरार प्रकाश पिता भुरला, गोविंद पिता मांगीलाल दोनों को घेराबंदी कर ग्राम सिलोटीया से गिरफ्तार किया है। पुछताछ में थाना बलकवाड़ा में चोरी करना भी कबुल किया। आरोपियों को कोर्ट पेश किया गया जहां से उन्हें जिला जेल खरगोन दाखिल किया गया।

करापुर में क्षत्रिय समाज की बैठक संपन्न

करापुर। शनिवार को करापुर में क्षत्रिय महासभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाज के वरिष्ठजन एवं पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। बैठक में क्षत्रिय समाज सागर के अध्यक्ष श्री लखन सिंह भी उपस्थित थे। श्री लखन सिंह ने बैठक में जानकारी दी की 23 दिसम्बर को जिला क्षत्रिय महासभा सागर द्वारा क्षत्रिय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह आयोजन सागर के बागमोर स्टेडियम में 23 दिसम्बर सोमवार को दोपहर 12 से होगा। क्षत्रिय युवा सम्मेलन में पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं अध्यक्ष विधानसभा मध्यप्रदेश मान. श्री नरेन्द्र सिंह जी तोमर मुख्य अतिथि होंगे। श्री लखन सिंह ने क्षत्रिय युवा सम्मेलन में शामिल होने का आह्वान किया है। इसके अलावा बैठक में अध्यक्ष श्री लखन सिंह ने समाज में जिम्मेदारियों व सामाजिक कार्य बांटने को लेकर विभिन्न प्रस्ताव रखे। इस अवसर पर बलवंत सिंह, गोपाल सिंह, मुशी सिंह, गोविंद सिंह, विशाल सिंह, रितायर्ड शिक्षक माधव सिंह, अजब सिंह, गोविंद सिंह खिरिया, इन्द्रा सिंह रितायर्ड डीएसपी, अवधेश सिंह सिमरिया, राहुल चौरा, शैलेन्द्र सिंह न.प. उपाध्यक्ष प्रतिनिधि, जितेन्द्र सिंह सभापति न.प. करापुर, सूर्यप्रताप सिंह युवा अध्यक्ष क्षत्रिय समाज, उमरवार सिंह, हाकम सिंह सहित समाज के वरिष्ठ लोग एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।



में ही आम जनता पर किसानों पर मजबूरों पर पुलिस द्वारा लाठियां वर्षाई जा रही हैं, इसी प्रकार का मामला 13 दिसम्बर को सामने आया, अमानगंज तहसील अन्तर्गत पुरैना में स्थित जेके सीमेंट प्लांट के सामने डम्पर द्वारा एक गरीब को टक्कर मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसका नाम शेल्तू सेन उम्र 25 वर्ष है, जो मोटर साईकिल से अपने घर पगरा जा रहा था, मौत हो



जाने के बाद क्षेत्रीय ग्रामीणों में जेके सीमेंट प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया एवं ग्रामीणों ने शव वर्मा ने मामले को शांत कराया, तथा वह स्वयं ग्रामीणों के साथ जेके सीमेंट कंपनी के गेट के सामने धरने पर बैठ गया। जानकारी लगने के बाद कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर पहुंचे रात्रि दस बजे तक दोनों पक्षों में वार्तालाप हुआ।

साक्षिप्त समाचार

हाजी जावेद बने नरर



मनावर। कुरेशी समाज मनावर के सभी वरिष्ठ और युवाओं की सर्व सहमति से समाज का सदर हाजी जावेद कुरेशी को बनाया गया

सभी समाज के सभी लोगों ने इस्तकबाल किया और मुबारकबाद दी उक्त जानकारी पूर्व पार्षद अरशद कुरेशी ने दी।

पीएमश्री कॉलेजों में प्रोफेसर्स की नियुक्ति नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई होगी प्रभावित

समय जगत, मनावर। पीएम श्री कॉलेजों में प्रोफेसर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले 6 माह से चल रही है परंतु अब तक उच्च शिक्षा विभाग इस कार्य को अंजाम नहीं दे पाया है। इन पीएम श्री कालेज आफ एक्सलेंस में विभाग द्वारा 1900 शैक्षणिक और 700 अशैक्षणिक पदों को स्वीकृति भी दी है। प्राचार्यों की नियुक्ति होने के बाद प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों की सूची की आस लगाए बैठे उम्मीदवारों को बहुत ही बेसर्बा से इंतजार है। विभाग द्वारा 7-20 नवंबर तक 7 सभागों में 2800 से अधिक विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों सहायक प्राध्यापकों के साक्षात्कार की प्रक्रिया संपन्न करा ली गई किंतु आज तक चयनित सूची नहीं आ पा रही है जिसका प्रभाव छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। विदित हो कि विभाग द्वारा पीएमश्री कॉलेजों में वर्तमान में अध्यापन का मोर्चा संभालने के लिए प्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों से प्राध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा है जिनका कार्यकाल भी 15 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा। यदि विभाग शीघ्र ही सूची जारी नहीं करता है तो छात्रों को पढ़ाई का नुकसान होगा। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण सूची नहीं आ पा रही है। यह तो विभाग ही जाने। विभाग द्वारा पहले ऑनलाइन आवेदन बुलवाए गए फिर संशोधन कर पुनः आवेदन बुलवाए गए जिसमें 5 माहने का समय बीत गया अब साक्षात्कार हो गए हैं लेकिन सूची बनने के बाद भी नहीं आ पा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया में वैसे ही विभाग ने काफी समय बीता दिया है। इससे अच्छे होता की अतिथि विद्वानों की नियुक्ति की तरह उच्च शैक्षणिक योग्यता, अनुभव अंक एवं शोधपत्र प्रकाशन के आधार पर प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों की मेरिट बना लेते तो आज पीएमश्री का उद्देश्य पूरा हो जाता।

अभाविप की कालेज परिसर की कार्यकारिणी में प्राचार्य व प्रोफेसर के मौजूद रहने पर एन एसयूआई ने लगाये आरोप



समय जगत, सिरोंजा। शासकीय लाल बहादुर शास्त्री स्नाकोतर महाविद्यालय के गत दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की परिसर कार्यकारिणी के गठन के दौरान आयोजित कार्यक्रम कालेज प्रांगण में आयोजित होकर कालेज प्रभारी (प्राचार्य) डॉ लालचंद राजपूत एवं वरिष्ठ प्राध्यापक सीता रामराम तिवारी की मौजूदगी पर एन एसयूआई ने आरोप लगाये है। एन एसयूआई के छात्र नेता समीर कुरेशी ने आरोप लगाते हुये कहाकि कालेज प्रबंधन के उक्त प्रोफेसर व प्रभारी भाजपा की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय में कार्यकारिणी बनवाई और कार्यकारिणी का स्वागत महाविद्यालय स्मार्ट क्लासरूम अखिल भारतीय विद्यार्थी लगा फ्लेसस लगा हे साफ साफ नजारा हे प्रभारी प्राचार्य राज्य शासन के अधीन नहीं है बल्कि बीजेपी और विद्यार्थी परिषद के अधीन है हे ऐसा दिखाई देता।

श्री हरिराय का हुआ आगमन

समय जगत, आगर मालवा। अनंत श्री विभूषित द्वितीय पीठ युवराज इंद्रोर नाथद्वारा पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री हरिराय जी महोदय श्री का परम आगमन राजा भैया रोड स्थित बालकृष्ण लाल जी की हवेली में हुआ। यहां पर सक्सेना (मुंशी परिवार) की अगुवाई में अपने निज हवेली में श्री वल्लभ व बालकृष्ण लाल प्रभु की असीम कृपा से छयन भोग (भव्य बड़ा मनोरथ) का आयोजन किया गया। जिसमें वह पधारों। जिनकी अगुवानी नगर के वैष्णव जनों द्वारा की गई। 4. 30 पर छयन भोग मनोरथ में आरती किये। तपश्चक्र दूर दराज के क्षेत्र से आए हुए वैष्णवजनों को आह हवेली परिसर में ही अपने वचनामृत से कृतार्थ किये।

गायत्री महायज्ञ में उमड़ा भक्तों का सेलाब

वेद मंत्रों से गूंजा बांदरी, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दी आहुतियां

समय जगत, बांदरी। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में दाल मिल के पास स्थित गायत्री मंदिर प्रांगण में नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ का समापन देर शाम को भव्य और अद्भुत श्रद्धा भक्ति के साथ हुआ। इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने भक्तों का सेलाब उमड़ा पड़ा। श्रद्धालुओं ने इस दीप महायज्ञ में भाग लेकर अपने जीवन को प्रकाशमय और पुण्य से परिपूर्ण बनाने की कामना की। जिला समन्वयक पं. कमलानिधि शर्मा द्वारा सभी वैदिक क्रियाएं संपन्न कराई गईं। प्रातः बेला में प्रज्ञा पुराण के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दीं गईं। श्री शर्मा ने पावन प्रज्ञा पुराण कथा पर प्रवचन करते हुए कहा कि प्रज्ञा पुराण



परिवार का सदस्य माना जाता है। यहां गाय के लिए पहली और कुत्ते के लिए आखिरी रोटी निकाली जाती है। चिट्ठियों को आटा और पक्षियों को दाना डालते हैं। श्री शर्मा ने इस मौके पर कहा कि वेद मंत्रों की ध्वनि से पर्यावरण और इस जीवन संसार में यज्ञ से कथा में 18 पुराणों का सार है। धार्मिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक कथाओं से मनुष्य का नैतिक उन्नयन होता है। श्री शर्मा ने कहा कि विश्व परिवार की परिधि बहुत विशाल है। उसमें समस्त प्राणी आ जाते हैं। भारत में पशु पक्षियों को भी

असीमित प्रभाव देखने को मिलते हैं। यज्ञ से इंसान गुणवान बनता है और उसके जीवन का ही नहीं समस्त विश्व का कल्याण होता है। श्री शर्मा ने मां गायत्री के मंत्र के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र द्वारा शारीरिक, मानसिक,

आध्यात्मिक, लौकिक, पारलौकिक हर तरह की शांति और सुख प्राप्त किया जा सकता है। इस पूरे आयोजन ने श्रद्धालुओं को धर्म, आस्था और भक्ति से जोड़ते हुए एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण का निर्माण किया। शाम को दीप महायज्ञ के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर गायत्री परिवार के तहसील समन्वयक लक्ष्मण प्रजापति, गोविंद सिंह ठाकुर, कैलाश श्रीवास्तव, रामचरण सेनी, भूपेंद्र शुक्ला, राजेंद्र चौहान, मुनालाल ताम्रकार, देशराज सिंह, ब्रजेश प्रजापति जितेंद्र प्रजापति, महेश मुंडोतिया, आयुष प्रजापति सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालू व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

वैश्य महासम्मेलन की नई कार्यकारिणी हुई गठित

समय जगत, कटनी। गत दिवस वैश्य महासम्मेलन की नवगठित जिला कार्यकारिणी का समान एवं वैश्य महासम्मेलन 2025 के कलेण्डर विमोचन कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। सर्व प्रथम मंचासीन अतिथि दयाशंकर कनकने प्रदेश उपाध्यक्ष वैश्य महासम्मेलन मध्यप्रदेश, सुरेश सोनी प्रदेश महामंत्री एवं कटनी संभागा प्रभारी, राम दयाल गुप्ता प्रदेश संयोजक साहित्य प्रकोष्ठ बालमुकुन्द गुप्ता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं कटनी जिलाप्रभारी, श्रीमती सीमा जैन कटनी संभागा प्रभारी महिला प्रकोष्ठ, रजत जैन जिलाध्यक्ष वै महा मप्र कटनी, रमेश गुप्ता जिला कार्यकारी अध्यक्ष नवीन कुमार गुप्ता जिला महामंत्री श्रीमती जयंती खंताल, जिला प्रभारी महिला प्रकोष्ठ श्रीमती दीपाली गुप्ता महिला जिलाध्यक्ष अग्रज लहरिया युवा जिला प्रभारी हितेश बिलैया युवा जिलाध्यक्ष वै महा मप्र कटनी के सभी पदाधिकारी द्वारा निर्देवियों का पूजन एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात वैश्य गान महिला प्रकोष्ठ की श्रीमती शालिनी सोनी, विधा कदले, सारिका गुप्ता, रश्मि बरसैया, मोहनी बरसैया, आकांक्षा



बरसैया, सोनल जैन, नीता बिचपुरिया, अलका कनकने, आशू सुहाणे के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंचासीन अतिथियों का स्वागत युवा सदस्य द्वारा किया गया समाननीय अतिथियों पदाधिकारी द्वारा नवनिर्भुक्त रजत जैन जिलाध्यक्ष वै महा मप्र कटनी, रमेश गुप्ता जिला कार्यकारी अध्यक्ष नवीन कुमार गुप्ता जिला महामंत्री एवं समस्त नवीन पदाधिकारियों को तिरक माला से अभिनन्दन कर पद नियुक्ति पत्र सौंपा गया तदुपरांत वैश्य महासम्मेलन 2025 कलेण्डर के विमोचन का कार्यक्रम अध्यक्ष रजत जैन एवं संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों, संभागीय प्रभारी, जिला प्रभारियों के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ।

11 मई को नगर में होगा फूलमाली समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन, बैठक में हुआ निर्णय

समय जगत, सारंगपुर। सकल पंच फूल माली समाज के 6 मोहल्ले की सामूहिक बैठक भेरू दरवाजा स्थित समाज की धर्मशाला में समाज अध्यक्ष शिवनारायण पुष्यद काका, की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई साथ ही समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने पर विस्तार से चर्चा करते हुए 11 मई को समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन नगर में करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया सम्मेलन को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए अध्यक्ष व

कार्यकारिणी का गठन व स्थान का चयन अगली बैठक में किया जाएगा। वही समाज के युवा कार्यकर्ता महेश पुष्यद, तलेनी का भाजपा के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष घोषित होने पर समाज जनों के द्वारा साफा बाधकर व फूलमाला पहना कर स्वागत व सम्मान किया गया वही स्वागत किया गया इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष महेश पुष्यद, ने कहा कि वे तम मन धन से समाज की सेवा के



लिए जहाँ जैसी भी आवश्यकता होगी उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बैठक का संचालन समाज सचिव गोरीलाल पुष्यद, ने किया तथा आभार भेरू दरवाजा पंचायत अध्यक्ष धनसिंह पुष्यद, ने माना इस अवसर पर किसी पंचायत अध्यक्ष प्रेम नारयण पुष्यद, बागकुआंटकी पंचायत अध्यक्ष केलशा वर्मा, पछेटवाडी पंचायत

अध्यक्ष केलशा पुष्यद, भगत मुकेरवाडी, पंचायत अध्यक्ष शिवनारायण पुष्यद, पुर्व समाज अध्यक्ष रामचरण पुष्यद, महादेव मित्र मंडल अध्यक्ष ओमप्रकाश पुष्यद, शिवचरण पुष्यद मोतीलाल माली, हीरालाल पुष्यद, राजेश पुष्यद, मदनलाल पुष्यद, मांगीलाल पुष्यद, रामेश्वर पुष्यद, अनोखी लाल पुष्यद, देवनारायण पुष्यद, घौसुलाल पुष्यद, विनोद पुष्यद, मनोज पुष्यद, दीपक पुष्यद, कपिल पुष्यद, ओम पुष्यद, किडी, राजेश पुष्यद विशाल, पुष्यद, सहित अन्य समाज जन उपस्थित थे।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की मासिक बैठक हुई संपन्न

समय जगत, बांदा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बांदा जिला इकाई एवं ब्लॉक इकाई की संयुक्त मासिक बैठक नटराज म्यूजिक महाविद्यालय में संपन्न हुई। जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि दिसंबर माह की मासिक एवं वर्ष 2024 की अंतिम बैठक आज संपन्न हुई। जिसमें समस्त ब्लॉकों के अध्यक्ष/महामंत्री/प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में वर्ष 2024 में संगठन की उपलब्धियां पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही आगामी वर्ष 2025 में संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यों/कार्यक्रमों/लक्ष्यों की विस्तृत चर्चा की गई। कुछ ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा अनागत कराया गया कि खंड शिक्षा



अधिकारियों द्वारा किचन बर्तन हेतु प्राप्त धनराशि एवं कंपोजिट ग्रांट आदि में अवैध धनराशि की मांग की जा रही है। जिसका जिला अध्यक्ष पंकज सिंह द्वारा विरोध करते हुए कहा गया कि ऐसी स्थितियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। किसी भी शिक्षक का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न अवकाशों के समय पर निस्तारण में रुचि न लिए जाने का प्रकरण भी आया। जिसको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के संज्ञान में लाने का भरोसा जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने दिलाया। बैठक में जिला कार्यकारिणी सहित समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, महामंत्री एवं अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित रहे बैठक का संचालन संयुक्त मंत्री विनोद कुमार शिवहरे ने किया।

अंतिम व्यक्ति का कल्याण है हमारा लक्ष्य: विधायक आशीष शर्मा



समय जगत, खरगोन। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। अंत्योदय यानी समाज की अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन.जन के जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। प्रदेश के विकास और जनता के हित में तय किए गए 456 संकल्पों में से एक साल के अंदर 45 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं और 268 संकल्पों पर तेजी से कार्य चल रहा है। आगे आने वाले चार वर्ष में हम एक.एक संकल्प पूरा करेंगे।

शनिवार को यह बात खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा जिला कार्यालय पर हुई पत्रकारवार्ता में कही। पत्रकारवार्ता में पूर्व राज्यमंत्री व विधायक बालकृष्ण पाटीदार, पूर्व जिलाध्यक्ष रणजीतसिंह डंडी, जिला महामंत्री राजेश माहेश्वरी, जिला कार्यालय मंत्री मोहन राठौर व जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश भावसार उपस्थित थे। उन्होंने कहा मध्यप्रदेश की उन्नति और प्रगति के साथ जनता को खुशहाल बनाने के लिये हमारी सरकार का जो

संकल्प पत्र था, उसपर चरणबद्ध तरीके से तेजी से कार्य हो रहा है। श्री शर्मा ने गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा इंदौर के हनुमन्चंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों की लॉबित राशि 224 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। संबल 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ 73 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया। रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर का अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस का भुगतान। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि में 6 हजार रुपये प्रति वर्ष का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा रहा है। राजस्व महाअभियान के दो चरणों में 80 लाख से अधिक लॉबित प्रकरणों का निपटारा किया गया। विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5 हजार करोड़ रुपये का स्व.रोजगार ऋण वितरित हुआ, इसके अलावा कई अन्य उपलब्धियां शामिल हैं।

मुख्यमंत्री जल कल्याण अभियान की हुई शुरुआत

समय जगत, बीनागंज। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान दिनांक 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्तित की गई हितग्राही मूलक योजनाओं में शत प्रतिशत सेचुरेशन एवं लक्ष्य आधारित योजनाओं को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर 24 से 26 जनवरी 25 तक शासन निर्देशानुसार आयोजित किए जाएंगे। जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्तित हितग्राहीमूलक 45 योजनाओं एवं 63 सेवाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे एवं प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में संबंधित विभागों द्वारा निराकरण किया जाएगा। इसी तारतम्य में आज जयपद पंचायत चांचौड़ा के ग्राम पंचायत अरन्धा, पाखरियापुरा एवं बरखेड़ा खुर्द में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए जिसमें पाखरियापुरा में 52, अरन्धा में 54 एवं बरखेड़ा खुर्द में 50 आवेदन प्राप्त हुए जिनको आनलाइन किया जाकर समय सीमा में संबंधित विभागों द्वारा समय सीमा में निराकरण किया जावेगा। ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में ग्राम संपर्क दल के साथ जिले से नियुक्त नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी द्वारा ग्राम में उपस्थित रहकर शिविर को संपन्न किया गया।

शहर के विकास के लिए मास्टर प्लान के तहत काम करने की है जरूरत

समय जगत, मुर्ना। शहर को नगर निगम बने एक दशक होने को जा रहा है लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक मुर्ना नगर निगम में जो भी प्रतिनिधि चुने गए उनके पास कोई बड़ा मास्टर प्लान नहीं था और न ही वर्तमान जन प्रतिनिधियों पर है। मनमजो के मुताबिक निर्माण कार्य करना फिर उसी निर्माण कार्य को बर्बाद करना मानो जैसे यहाँ के रीत बन गई है। सबसे पहले शहर भर में सीसी रोड डालने का कार्य हुआ लेकिन बाद में सीवर प्रोजेक्ट के चलते वह सभी रोड खोद दी गई। इसके बाद फिर से सीसी रोड का निर्माण हुआ और बाद में वाटर प्रोजेक्ट के चलते एक बार फिर से करोड़ों रूपयों की लागत से बनी सड़कों को खोद दिया गया। इसके अलावा नाले-नालियों के निर्माण में भी करोड़ों रूपये फूँक दिये गये लेकिन उनका उपयोग न हो सका। इसके अलावा पिछले बरसात के समय नाले-नालियों को साफ करने के लिए लाखों रूपये के टेण्डर जारी किये गये लेकिन किसी भी नाले में साफ-सफाई देखने तक को नहीं मिली। आज भी शहर के ज्यादातर नाले गंदगी से भरे पड़े हैं और कई नाले-नालियां जाम होने के कारण उनका गंद पानी सड़कों पर चौबीसों घंटे बहता रहता है। नगर निगम में पदस्थ इंजीनियरों की बात की जाये तो वह फ्री की तनख्वाह शासन से ले रहे हैं। यहाँ के इंजीनियरों की यदि काबिलियत देखना हो तो कोतवाली में बने नालों पर नजर डालें जो कई जगह छोड़कर बनाये गये हैं। लेकिन यह समझ से परे हैं कि ऐसी काबिलियत यहाँ के इंजीनियर आखिरकार लाते कहाँ से हैं। जब नगर निगम के चुनाव हुये थे तो महापौर की दावेदार श्रीमती शारदा सोलंकी ने बड़े-बड़े वादे चुनाव प्रचार के समय लिखित में एक पर्चा छपाकर किये थे लेकिन उन वादों में



जेता है, वादा हमसे करते हैं और विकास खुद का कर लेते हैं...

से अभी तक एक भी वादा महापौर द्वारा पूरा नहीं किया गया है। शहर की सड़कों की अगर बात की जाये तो ज्यादातर गलियों में सड़कें हैं ही नहीं और जिन गलियों व वाडों में सड़कें हैं भी तो वह इतनी घटिया स्तर की हैं जो पहली बारिश में ही उखड़ चुकी हैं। इसके अलावा शहर की सड़कों पर आवाजा मवेशी घूमते हुये सैकड़ों की संख्या में देखे जा सकते हैं। जहाँ जन प्रतिनिधि और शासन प्रशासन बड़ी-बड़ी ढींगे हाककर यह कहते नहीं थकते कि शहर में गौशालाएँ हैं और वहाँ आवाजा गौवंश को रखने को उचित व्यवस्था है। लेकिन उनके यहाँ दावे सिरे से तब नकार दिये जाते हैं जब शहर में विचरने वाले गौवंश सैकड़ों की तादात में दिखाई देते हैं। इनसे एक तो यातायात प्रभावित होता है और दूसरा कई लोग इन गौवंश के गुस्से का शिकार होकर चोटिल भी हो जाते हैं। बावजूद इसके प्रशासन व जन प्रतिनिधियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए भी प्रतिदिन लाखों रूपये खर्च नगर निगम द्वारा किये जाते हैं लेकिन शहर में गंदगी जस की तस बनी हुई है। कुल मिलाकर नगर निगम के जन जन प्रतिनिधियों के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है जिससे शहर को साफ स्वच्छ रखने के साथ-साथ यहाँ कई निर्माण कार्य कराये जायें जिससे शहर की सुंदरता बढ़े। हाँ अपने चहिते टेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बेमतलब के निर्माण कार्य जरूर नगर निगम द्वारा करवाये जा रहे हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं है। उदाहरण के लिए गांधी कॉलोनी का स्वागत द्वार बनवाना, डिवाइडरों पर ग्रिल लगवाना। यह ऐसे निर्माण कार्य हैं जिनसे किसी को कुछ भी फायदा नहीं होगा।

युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध मध्यप्रदेश सरकार



11 दिसम्बर - 26 दिसम्बर 2024

जनकल्याण पर्व

मोहन यादव सरकार काम लगातार-फैसले असरदार

युवा संवाद

स्व-रोजगार, रोजगार केंद्रित कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

के साथ

दोपहर 12:00 बजे | बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

एवं

पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुति

प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस बैंड द्वारा एक साथ प्रदर्शन

अपराह्न 3:00 बजे | कुशाभाऊ ठाकरे सभागार प्रांगण, भोपाल

16 दिसम्बर, 2024

सशक्त भविष्य का निर्माण

- लगभग 1 लाख शासकीय पदों पर भर्तियां जारी। अगले 5 वर्ष में 2.50 लाख भर्तियों का लक्ष्य।
- गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस प्रारंभ।
- भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और रीवा विश्वविद्यालय में इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना।
- स्टैंड-अप इंडिया में बिना गारंटी ₹ 1 करोड़ तक का ऋण।
- स्टार्ट-अप को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए ₹ 50 हजार से ₹ 1.50 लाख तक वित्तीय सहायता।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में स्व-रोजगार के लिए बिना गारंटी ₹ 20 लाख तक का ऋण।



D-11123/24

सीधा प्रसारण

@Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh

@Cmmadhyapradesh @jansamparkMP

JansamparkMP

मध्यप्रदेश जनसंपर्क द्वारा जारी

आकलन : मध्यप्रदेश माध्यम/2024